



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062024-254573  
CG-DL-E-06062024-254573

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 6, 2024/ज्येष्ठ 16, 1946

No. 141]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 6, 2024/JYAISHTHA 16, 1946

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2024

आ.अ. 151(अ).—यतः, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उप-धारा (2) के अंतर्गत 20 मार्च, 2024, 28 मार्च, 2024, 12 अप्रैल, 2024, 18 अप्रैल, 2024, 26 अप्रैल, 2024, 29 अप्रैल, 2024 और 7 मई, 2024 को जारी अधिसूचना सं. एच-11024(4)/2023-वि.II के अनुसरण में नई लोक सभा गठित करने के प्रयोजनार्थ साधारण निर्वाचन आयोजित किया गया है; और

यतः, सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा लोक सभा निर्वाचन के परिणामों की घोषणा कर दी गई है; और

अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 73 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, उन निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में निर्वाचित सदस्यों के नाम, उनके दलीय संबंधनों, यदि कोई हो, के साथ इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में अधिसूचित करता है।

## अनुसूची

(भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 06 जून, 2024 की अधिसूचना सं. 308/2024/ईपीएस का संलग्नक)

क्र. सं.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	दलीय संबंधन (यदि कोई हो)
<b>आंध्र प्रदेश</b>			
1.	1-अराकु (अ.ज.जा.)	गुम्मा तनुजा रानी	युवाजना श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी
2.	2-श्रीकाकुलम	किंजरपु राममोहन नायडू	तेलुगु देशम
3.	3-विजियानगरम	अप्पलानायडु कालीसेट्टी	तेलुगु देशम
4.	4-विशाखापटनम	श्रीभारत माथुकुमिली	तेलुगु देशम
5.	5-अनाकापल्ले	सी.एम. रमेश	भारतीय जनता पार्टी
6.	6-ककिनाडा	तंगेला उदय श्रीनिवास (टी टाईम उदय)	जनसेना पार्टी
7.	7-अमालापुरम (अ.जा.)	जी एम हरीश (बालयोगी)	तेलुगु देशम
8.	8-राजामुन्दरी	दग्गुबाती पुरंधेश्वरी	भारतीय जनता पार्टी
9.	9-नरसापुरम	भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा (बी.जे.पी. वर्मा)	भारतीय जनता पार्टी
10.	10-इलुरु	पुत्ता महेश कुमार	तेलुगु देशम
11.	11-मछलीपटनम	बालाशोरी वल्लभनेनी	जनसेना पार्टी
12.	12-विजयवाड़ा	केसिनेनी शिवनाथ (चिन्नी)	तेलुगु देशम
13.	13-गुन्दुर	डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी	तेलुगु देशम
14.	14-नरसाराओपेट	लवू श्री कृष्ण देवरायलु	तेलुगु देशम
15.	15-बापतला (अ.जा.)	कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी	तेलुगु देशम
16.	16-ओंगोले	मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी	तेलुगु देशम
17.	17-नन्दयाल	डॉ. बायरेड्डी शबरी	तेलुगु देशम
18.	18-कुरनूल	बास्तीपति नागराजू (पंचलिंगला)	तेलुगु देशम
19.	19-अनन्तपुर	अंबिका जी लक्ष्मीनारायण वाल्मीकी	तेलुगु देशम
20.	20-हिन्दुपुर	बी. के. पार्थसारथी	तेलुगु देशम
21.	21-कडापा	वाई. एस. अविनाश रेड्डी	युवाजना श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी

22.	22-नेल्लोर	प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी	तेलुगु देशम
23.	23-तिरुपति (अ.जा.)	गुरुमूर्ति मड्डिला	युवाजना श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी
24.	24-राजमपेट	पी.वी.मिधुन रेड्डी	युवाजना श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी
25.	25-चित्तूर (अ.जा.)	दग्गुमल्ला प्रसाद राव	तेलुगु देशम
<b>अरुणाचल प्रदेश</b>			
26.	1-अरुणाचल पश्चिम	किरेन रिजीजु	भारतीय जनता पार्टी
27.	2-अरुणाचल पूर्व	तापिर गावो	भारतीय जनता पार्टी
<b>असम</b>			
28.	1-कोकराझार (अ.ज.जा.)	जोयंता बसुमतारी	युनाइटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल
29.	2-धुबरी	रकीबुल हुसैन	इंडियन नेशनल काँग्रेस
30.	3-बारपेटा	फणी भूषण चौधरी	असम गण परिषद्
31.	4-दारंग-उदालगुडी	दिलीप सैकिया	भारतीय जनता पार्टी
32.	5-गुवाहाटी	बिजुली कलीता मेधी	भारतीय जनता पार्टी
33.	6-डिफू (अ.ज.जा.)	अमरसिंह टीसो	भारतीय जनता पार्टी
34.	7-करीमगंज	कृपानाथ मल्लाह	भारतीय जनता पार्टी
35.	8-सिलचर (अ.जा.)	परिमल सुक्लाबिद्या	भारतीय जनता पार्टी
36.	9-नगांव	प्रद्युत बोरदोलोई	इंडियन नेशनल काँग्रेस
37.	10-काजीरंगा	कामाख्या प्रसाद तासा	भारतीय जनता पार्टी
38.	11-सोनितपुर	रंजीत दत्ता	भारतीय जनता पार्टी
39.	12-लखीमपुर	प्रदान बरूआ	भारतीय जनता पार्टी
40.	13-डिब्रूगढ़	सर्वानंद सोनोवाल	भारतीय जनता पार्टी
41.	14-जोरहाट	गौरव गोगोई	इंडियन नेशनल काँग्रेस
<b>बिहार</b>			
42.	1-वाल्मीकिनगर	सुनील कुमार	जनता दल (यूनायटेड)
43.	2-पश्चिम चम्पारण	डा. संजय जायसवाल	भारतीय जनता पार्टी
44.	3-पूर्वी चम्पारण	राधामोहन सिंह	भारतीय जनता पार्टी
45.	4-शिवहर	लवली आनंद	जनता दल (यूनायटेड)
46.	5-सीतामढ़ी	देवेश चन्द्र ठाकुर	जनता दल (यूनायटेड)

47.	6-मधुबनी	अशोक कुमार यादव	भारतीय जनता पार्टी
48.	7-झंझारपुर	रामप्रीत मंडल	जनता दल (यूनायटेड)
49.	8-सुपौल	दिलेश्वर कामैत	जनता दल (यूनायटेड)
50.	9-अररिया	प्रदीप कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
51.	10-किशनगंज	मोहम्मद जावेद	इंडियन नेशनल काँग्रेस
52.	11-कटिहार	तारिक अनवर	इंडियन नेशनल काँग्रेस
53.	12-पूर्णियाँ	राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव	निर्दलीय
54.	13-मधेपुरा	दिनेश चन्द्र यादव	जनता दल (यूनायटेड)
55.	14-दरभंगा	गोपाल जी ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
56.	15-मुजफ्फरपुर	राज भूषण चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
57.	16-वैशाली	वीणा देवी	लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)
58.	17-गोपालगंज (अ.जा.)	डॉ. आलोक कुमार सुमन	जनता दल (यूनायटेड)
59.	18-सिवान	विजयलक्ष्मी देवी	जनता दल (यूनायटेड)
60.	19-महराजगंज	जनार्दन सिंह "सीग्रीवाल"	भारतीय जनता पार्टी
61.	20-सारण	राजीव प्रताप रूडी	भारतीय जनता पार्टी
62.	21-हाजीपुर (अ.जा.)	चिराग पासवान	लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)
63.	22-उजियारपुर	नित्यानन्द राय	भारतीय जनता पार्टी
64.	23-समस्तीपुर (अ.जा.)	शाम्भवी	लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)
65.	24-बेगूसराय	गिरिराज सिंह	भारतीय जनता पार्टी
66.	25-खगड़िया	राजेश वर्मा	लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)
67.	26-भागलपुर	अजय कुमार मंडल	जनता दल (यूनायटेड)
68.	27-बाँका	गिरिधारी यादव	जनता दल (यूनायटेड)
69.	28-मुंगेर	राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	जनता दल (यूनायटेड)
70.	29-नालन्दा	कौशलेन्द्र कुमार	जनता दल (यूनायटेड)
71.	30-पटना साहिब	रवि शंकर प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
72.	31-पाटलिपुत्र	मीसा भारती	राष्ट्रीय जनता दल
73.	32-आरा	सुदामा प्रसाद	कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिसिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)
74.	33-बक्सर	सुधाकर सिंह	राष्ट्रीय जनता दल

75.	34-सासाराम (अ.जा.)	मनोज कुमार	इंडियन नेशनल काँग्रेस
76.	35-काराकाट	राजा राम सिंह	कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)
77.	36-जहानाबाद	सुरेन्द्र प्रसाद यादव	राष्ट्रीय जनता दल
78.	37-औरंगाबाद	अभय कुमार सिन्हा	राष्ट्रीय जनता दल
79.	38-गया (अ.जा.)	जीतन राम मांझी	हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर)
80.	39-नवादा	विवेक ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
81.	40-जमुई (अ.जा.)	अरूण भारती	लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)
<b>छत्तीसगढ़</b>			
82.	1-सरगुजा (अ.ज.जा.)	चिन्तामणि महाराज	भारतीय जनता पार्टी
83.	2-रायगढ़ (अ.ज.जा.)	राधेश्याम राठिया	भारतीय जनता पार्टी
84.	3-जांजगीर-चांपा (अ.जा.)	कमलेश जांगड़े	भारतीय जनता पार्टी
85.	4-कोरबा	ज्योत्सना चरणदास महंत	इंडियन नेशनल काँग्रेस
86.	5-बिलासपुर	तोखन साहू	भारतीय जनता पार्टी
87.	6-राजनांदगांव	संतोष पाण्डेय	भारतीय जनता पार्टी
88.	7-दुर्ग	विजय बघेल	भारतीय जनता पार्टी
89.	8-रायपुर	बृजमोहन अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी
90.	9-महासमुन्द	रूपकुमारी चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
91.	10-बस्तर (अ.ज.जा.)	महेश कश्यप	भारतीय जनता पार्टी
92.	11-कॉंकेर (अ.ज.जा.)	भोजराज नाग	भारतीय जनता पार्टी
<b>गोवा</b>			
93.	1-उत्तर गोवा	श्रीपाद येसो नाईक	भारतीय जनता पार्टी
94.	2-दक्षिण गोवा	कैप्टन विरियातो फर्नांडीस	इंडियन नेशनल काँग्रेस
<b>गुजरात</b>			
95.	1-कच्छ (अ.जा.)	चावडा विनोद लखमशी	भारतीय जनता पार्टी
96.	2-बनासकांठा	गेनीबेन नगाजी ठाकोर	इंडियन नेशनल काँग्रेस
97.	3-पाटण	डाभी भरतसिंहजी शंकरजी	भारतीय जनता पार्टी
98.	4-महेसाणा	हरीभाई पटेल	भारतीय जनता पार्टी
99.	5-साबरकांठा	शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया	भारतीय जनता पार्टी

100.	6-गांधीनगर	अमित शाह	भारतीय जनता पार्टी
101.	7-अहमदाबाद पूर्व	हसमुखभाई पटेल (एच.एस.पटेल)	भारतीय जनता पार्टी
102.	8-अहमदाबाद पश्चिम (अ.जा.)	दिनेशभाई मकवाणा (एडवोकेट)	भारतीय जनता पार्टी
103.	9-सुरेन्द्रनगर	चंदुभाई छगनभाई शिहोरा	भारतीय जनता पार्टी
104.	10-राजकोट	परषोत्तमभाई रुपाला	भारतीय जनता पार्टी
105.	11-पोरबंदर	डॉ. मनसुख मांडविया	भारतीय जनता पार्टी
106.	12-जामनगर	पूनमबेन हेमतभाई माडम	भारतीय जनता पार्टी
107.	13-जुनागढ	चुडासमा राजेशभाई नारणभाई	भारतीय जनता पार्टी
108.	14-अमरेली	भरतभाई मनुभाई सुतरिया	भारतीय जनता पार्टी
109.	15-भावनगर	निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया (निमुबेन बांभणिया)	भारतीय जनता पार्टी
110.	16-आणंद	मितेष पटेल (बकाभाई)	भारतीय जनता पार्टी
111.	17-खेडा	देवुसिंह चौहान	भारतीय जनता पार्टी
112.	18-पंचमहाल	राजपालसिंह महेन्द्रसिंह जादव	भारतीय जनता पार्टी
113.	19-दाहोद (अ.ज.जा.)	जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर	भारतीय जनता पार्टी
114.	20-वडोदरा	डॉ. हेमांग जोशी	भारतीय जनता पार्टी
115.	21-छोटाउदेपुर (अ.ज.जा.)	जशुभाई भीलूभाई राठवा	भारतीय जनता पार्टी
116.	22-भरुच	मनसुखभाई धनजीभाई वसावा	भारतीय जनता पार्टी
117.	23-बारडोली (अ.ज.जा.)	परभुभाई नागरभाई वसावा	भारतीय जनता पार्टी
118.	24-सुरत	मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल	भारतीय जनता पार्टी
119.	25-नवसारी	सी आर पाटिल	भारतीय जनता पार्टी
120.	26-वलसाड (अ.ज.जा.)	धवल लक्ष्मणभाई पटेल	भारतीय जनता पार्टी
<b>हरियाणा</b>			
121.	1-अम्बाला (अ.जा.)	वरुण चौधरी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
122.	2-कुरुक्षेत्र	नवीन जिन्दल	भारतीय जनता पार्टी
123.	3-सिरसा (अ.जा.)	सैलजा	इंडियन नेशनल काँग्रेस
124.	4-हिसार	जय प्रकाश (जे पी)	इंडियन नेशनल काँग्रेस
125.	5-करनाल	मनोहर लाल	भारतीय जनता पार्टी

126.	6-सोनीपत	सतपाल ब्रह्मचारी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
127.	7-रोहतक	दीपेन्द्र सिंह हुड्डा	इंडियन नेशनल काँग्रेस
128.	8-भिवानी-महेन्द्रगढ़	धर्मवीर सिंह	भारतीय जनता पार्टी
129.	9-गुडगांव	राव इन्द्रजीत सिंह	भारतीय जनता पार्टी
130.	10-फरीदाबाद	कृष्ण पाल	भारतीय जनता पार्टी
<b>हिमाचल प्रदेश</b>			
131.	1-कांगड़ा	डा. राजीव भारद्वाज	भारतीय जनता पार्टी
132.	2-मण्डी	कंगना रनौत	भारतीय जनता पार्टी
133.	3-हमीरपुर	अनुराग सिंह ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
134.	4-शिमला (अ.जा.)	सुरेश कुमार कश्यप	भारतीय जनता पार्टी
<b>झारखण्ड</b>			
135.	1-राजमहल (अ.ज.जा.)	विजय कुमार हाँसदा	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
136.	2-दुमका (अ.ज.जा.)	नलिन सोरेन	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
137.	3-गोड्डा	निशिकान्त दुबे	भारतीय जनता पार्टी
138.	4-चतरा	काली चरण सिंह	भारतीय जनता पार्टी
139.	5-कोडरमा	अन्नपूर्णा देवी	भारतीय जनता पार्टी
140.	6-गिरिडीह	चन्द्र प्रकाश चौधरी	आजसु पार्टी
141.	7-धनबाद	दुलू महतो	भारतीय जनता पार्टी
142.	8-राँची	संजय सेठ	भारतीय जनता पार्टी
143.	9-जमशेदपुर	बिद्युत वरण महतो	भारतीय जनता पार्टी
144.	10-सिंहभूम (अ.ज.जा.)	जोबा माझी	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
145.	11-खूंटी (अ.ज.जा.)	काली चरण मुण्डा	इंडियन नेशनल काँग्रेस
146.	12-लोहरदगा (अ.ज.जा.)	सुखदेव भगत	इंडियन नेशनल काँग्रेस
147.	13-पलामू (अ.जा.)	विष्णु दयाल राम	भारतीय जनता पार्टी
148.	14-हजारीबाग	मनीष जायसवाल	भारतीय जनता पार्टी
<b>कर्नाटक</b>			
149.	1-चिक्कोडी	प्रियंका सतीश जारकीहोली	इंडियन नेशनल काँग्रेस
150.	2-बेलगाम	जगदीश शेट्टर	भारतीय जनता पार्टी

151.	3-बागलकोट	गद्दीगौडर. पर्वतगौडा. चंदनगौडा.	भारतीय जनता पार्टी
152.	4-बीजापुर (अ.जा.)	रमेश जिगजिनागी	भारतीय जनता पार्टी
153.	5-गुलबर्गा (अ.जा.)	राधाकृष्ण	इंडियन नेशनल काँग्रेस
154.	6-रायचूर (अ.ज.जा.)	जी. कुमार नाइक.	इंडियन नेशनल काँग्रेस
155.	7-बीदर	सागर ईश्वर खंद्रे	इंडियन नेशनल काँग्रेस
156.	8-कोप्पल	के. राजशेखर बसवराज हितनाल	इंडियन नेशनल काँग्रेस
157.	9-बेल्लारी (अ.ज.जा.)	ई.तुकाराम	इंडियन नेशनल काँग्रेस
158.	10-हावेरी	बसवाराज बोम्मई	भारतीय जनता पार्टी
159.	11-धारवाड़	प्रल्हाद जोशी	भारतीय जनता पार्टी
160.	12-उत्तर कन्नड	विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी	भारतीय जनता पार्टी
161.	13-दावन्नेरे	डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन	इंडियन नेशनल काँग्रेस
162.	14-शिमोगा	बी.वाई.राघवेन्द्र	भारतीय जनता पार्टी
163.	15-उदीपी चिकमगलुर	कोटा श्रीनिवास पूजारी	भारतीय जनता पार्टी
164.	16-हसन	श्रेयस. एम. पटेल	इंडियन नेशनल काँग्रेस
165.	17-दक्षिण कन्नड	कैप्टन बृजेश चौटा	भारतीय जनता पार्टी
166.	18-चित्रदुर्ग (अ.जा.)	गोविंद मकथप्पा करजोल	भारतीय जनता पार्टी
167.	19-टुमकुर	बी. सोमना	भारतीय जनता पार्टी
168.	20-मान्ड्या	एच.डी. कुमारस्वामी	जनता दल (सेक्यूलर)
169.	21-मैसूर	यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार	भारतीय जनता पार्टी
170.	22-चामराजनगर (अ.जा.)	सुनील बोस	इंडियन नेशनल काँग्रेस
171.	23-बंगलौर ग्रामीण	डॉ. सी. एन. मंजूनाथ	भारतीय जनता पार्टी
172.	24-बंगलौर उत्तर	शोभा करंदलाजे	भारतीय जनता पार्टी
173.	25-बंगलौर केन्द्रीय	पी सी मोहन	भारतीय जनता पार्टी
174.	26-बंगलौर दक्षिण	तेजस्वी सूर्या	भारतीय जनता पार्टी
175.	27-चिक्काबल्लापुर	डॉ.के. सुधाकर	भारतीय जनता पार्टी
176.	28-कोलार (अ.जा.)	एम. मल्लेश बाबू	जनता दल (सेक्यूलर)



केरल			
177.	1-कासरगोड	राजमोहन उणिथान	इंडियन नेशनल काँग्रेस
178.	2-कन्नूर	के. सुधाकरन	इंडियन नेशनल काँग्रेस
179.	3-वडकरा	शाफी परम्बिल	इंडियन नेशनल काँग्रेस
180.	4-वयनाड	राहुल गांधी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
181.	5-कोझीकोड	एम.के. राघवन	इंडियन नेशनल काँग्रेस
182.	6-मलप्पुरम	ई.टी. मोहम्मद बशीर	इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग
183.	7-पोन्नानी	डॉ. एम. पी अब्दुस्समद समदानी	इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग
184.	8-पालक्काड	वी.के.श्रीकंदन	इंडियन नेशनल काँग्रेस
185.	9-अलथूर (अ.जा.)	के. राधाकृष्णन	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सिसिस्ट)
186.	10-त्रिस्सूर	सुरेश गोपी	भारतीय जनता पार्टी
187.	11-चालाकुडी	बेन्नी बेहानन	इंडियन नेशनल काँग्रेस
188.	12-एरनाकुलम	हिबी ईडन	इंडियन नेशनल काँग्रेस
189.	13-इडुक्की	एडवोकेट डीन कुरियाकोस	इंडियन नेशनल काँग्रेस
190.	14-कोट्टयम	एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज	केरल काँग्रेस
191.	15-अलप्पुझा	के. सी. वेणुगोपाल	इंडियन नेशनल काँग्रेस
192.	16-मावेलीक्करा (अ.जा.)	कोडिकुन्निल सुरेश	इंडियन नेशनल काँग्रेस
193.	17-पथनमथीट्टा	एंटो एंटनी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
194.	18-कोल्लम	एन.के. प्रेमचंद्रन	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी
195.	19-अट्टिंगल	अडूर प्रकाश	इंडियन नेशनल काँग्रेस
196.	20-तिरुवनन्तपुरम	शशि थरूर	इंडियन नेशनल काँग्रेस
मध्य प्रदेश			
197.	1-मुरैना	शिवमंगल सिंह तोमर	भारतीय जनता पार्टी
198.	2-भिण्ड (अ.जा.)	संध्या राय	भारतीय जनता पार्टी
199.	3-ग्वालियर	भारत सिंह कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
200.	4-गुना	ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया	भारतीय जनता पार्टी
201.	5-सागर	डॉ. लता वानखेडे	भारतीय जनता पार्टी
202.	6-टीकमगढ़ (अ.जा.)	डा. वीरेन्द्र कुमार	भारतीय जनता पार्टी

203.	7-दमोह	राहुल सिंह लोधी	भारतीय जनता पार्टी
204.	8-खजुराहो	विष्णु दत्त शर्मा (बी. डी. शर्मा)	भारतीय जनता पार्टी
205.	9-सतना	गणेश सिंह	भारतीय जनता पार्टी
206.	10-रीवा	जनार्दन मिश्र	भारतीय जनता पार्टी
207.	11-सीधी	डा. राजेश मिश्रा	भारतीय जनता पार्टी
208.	12-शहडोल (अ.ज.जा.)	श्रीमती हिमाद्री सिंह	भारतीय जनता पार्टी
209.	13-जबलपुर	आशीष दुबे	भारतीय जनता पार्टी
210.	14-मण्डला (अ.ज.जा.)	फगनसिंह कुलस्ते	भारतीय जनता पार्टी
211.	15-बालाघाट	भारती पारधी	भारतीय जनता पार्टी
212.	16-छिन्दवाड़ा	बंटी विवेक साहू	भारतीय जनता पार्टी
213.	17-होशंगाबाद	दर्शन सिंह चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
214.	18-विदिशा	शिवराज सिंह चौहान	भारतीय जनता पार्टी
215.	19-भोपाल	आलोक शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
216.	20-राजगढ़	रोडमल नागर	भारतीय जनता पार्टी
217.	21-देवास (अ.जा.)	महेन्द्र सिंह सोलंकी	भारतीय जनता पार्टी
218.	22-उज्जैन (अ.जा.)	अनिल फिरोजिया	भारतीय जनता पार्टी
219.	23-मंदसौर	सुधीर गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
220.	24-रतलाम (अ.ज.जा.)	अनिता नागरसिंह चौहान	भारतीय जनता पार्टी
221.	25-धार (अ.ज.जा.)	सावित्री ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
222.	26-इन्दौर	शंकर लालवानी	भारतीय जनता पार्टी
223.	27-खरगौन (अ.ज.जा.)	गजेन्द्र सिंह पटेल	भारतीय जनता पार्टी
224.	28-खण्डवा	ज्ञानेश्वर पाटील	भारतीय जनता पार्टी
225.	29-बैतूल (अ.ज.जा.)	दुर्गादास (डी. डी.) उइके	भारतीय जनता पार्टी
<b>महाराष्ट्र</b>			
226.	1-नन्दुरबार (अ.ज.जा.)	एडवोकेट गोवाल कागदा पाडवी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
227.	2-धुले	बच्छाव शोभा दिनेश	इंडियन नेशनल काँग्रेस
228.	3-जलगांव	स्मिता उदय वाघ	भारतीय जनता पार्टी
229.	4-रावेर	खडसे रक्षा निखिल	भारतीय जनता पार्टी

230.	5-बुलढाणा	जाधव प्रतापराव गणपतराव	शिवसेना
231.	6-अकोला	अनूप संजय धोत्रे	भारतीय जनता पार्टी
232.	7-अमरावती (अ.जा.)	बलवंत बसवंत वानखडे	इंडियन नेशनल काँग्रेस
233.	8-वर्धा	अमर शरदराव काले	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार
234.	9-रामटेक (अ.जा.)	श्यामकुमार (बबलु) दौलत बर्वे	इंडियन नेशनल काँग्रेस
235.	10-नागपुर	नितिन जयराम गडकरी	भारतीय जनता पार्टी
236.	11-भन्डारा-गोंदिया	डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले	इंडियन नेशनल काँग्रेस
237.	12-गडचिरोली-चिमुर् (अ.ज.जा.)	डॉ. किरसान नामदेव	इंडियन नेशनल काँग्रेस
238.	13-चन्द्रपुर	धानोरकर प्रतिभा सुरेश उर्फ बालुभाऊ	इंडियन नेशनल काँग्रेस
239.	14-यवतमाल-वाशिम	संजय उत्तमराव देशमुख	शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)
240.	15-हिंगोली	आष्टिकर पाटिल नागेश बापुराव	शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)
241.	16-नांदेड	चव्हाण वसंतराव बलवंतराव	इंडियन नेशनल काँग्रेस
242.	17-परभणी	जाधव संजय (बंडू) हरिभाऊ	शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)
243.	18-जालना	कल्याण वैजिनाथराव काले	इंडियन नेशनल काँग्रेस
244.	19-औरंगाबाद	भुमरे संदीपानराव आसाराम	शिवसेना
245.	20-दिन्डोरी (अ.ज.जा.)	भास्कर मुरलीधर भगरे	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार
246.	21-नाशिक	राजाभाऊ (पराग) प्रकाश वाजे	शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)
247.	22-पालघर (अ.ज.जा.)	डॉ. हेमंत विष्णु सावरा	भारतीय जनता पार्टी
248.	23-भिवंडी	बाल्या मामा – सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार
249.	24-कल्याण	डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे	शिवसेना
250.	25-ठाणे	नरेश गणपत म्हस्के	शिवसेना
251.	26-मुम्बई उत्तर	पीयूष गोयल	भारतीय जनता पार्टी
252.	27-मुम्बई उत्तर-पश्चिम	रवीन्द्र दत्ताराम वाइकर	शिवसेना
253.	28-मुम्बई उत्तर-पूर्व	संजय दीना पाटिल	शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)
254.	29-मुम्बई उत्तर-मध्य	गायकवाड वर्षा एकनाथ	इंडियन नेशनल काँग्रेस
255.	30-मुम्बई दक्षिण-मध्य	अनिल यशवंत देसाई	शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)

256.	31-मुम्बई दक्षिण	अरविंद गणपत सावंत	शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)
257.	32-रायगड	तटकरे सुनील दत्तात्रेय	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
258.	33-मावल	श्रीरंग अप्पा चंदू बारने	शिवसेना
259.	34-पुणे	मुरलीधर मोहोल	भारतीय जनता पार्टी
260.	35-बारामती	सुप्रिया सुले	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार
261.	36-शिरूर	डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार
262.	37-अहमदनगर	नीलेश ज्ञानदेव लंके	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार
263.	38-शिरडी (अ.जा.)	भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे	शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)
264.	39-बीड	बजरंग मनोहर सोनावणे	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार
265.	40-उस्मानाबाद	ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिम्बालकर	शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)
266.	41-लातूर (अ.जा.)	डॉ. कालगे शिवाजी बंदप्पा	इंडियन नेशनल काँग्रेस
267.	42-शोलापुर (अ.जा.)	प्रणीति सुशीलकुमार शिंदे	इंडियन नेशनल काँग्रेस
268.	43-माधा	मोहिते-पाटील धैर्यशील राजसिंह	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार
269.	44-सांगली	विशाल (दादा) प्रकाशबापू पाटिल	निर्दलीय
270.	45-सतारा	श्रीमंत छ. उदयनराजे प्रतापसिंहमहाराज भोंसले	भारतीय जनता पार्टी
271.	46-रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग	नारायण तातू राणे	भारतीय जनता पार्टी
272.	47-कोल्हापुर	छत्रपति शाहू शहाजी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
273.	48-हातकणंगले	धैर्यशील संभाजीराव माने	शिवसेना
<b>मणिपुर</b>			
274.	1-आंतरिक मणिपुर	अंगोमचा विमोल अकोइजम	इंडियन नेशनल काँग्रेस
275.	2-बाह्य मणिपुर (अ.ज.जा.)	अल्फ्रेड कनंगम एस. अर्थर	इंडियन नेशनल काँग्रेस
<b>मेघालय</b>			
276.	1-शिलांग (अ.ज.जा.)	डॉ. रिकी एंड्रयू जे. सिंग्कोन	वौइस् ऑफ़ द पीपुल पार्टी
277.	2-तुरा (अ.ज.जा.)	सलेंग ए. संगमा	इंडियन नेशनल काँग्रेस
<b>मिजोरम</b>			
278.	1-मिजोरम (अ.ज.जा.)	रिचर्ड वनलालहंगइहा	ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट

नागालैंड			
279.	1-नागालैंड	एस. सुपोंगमेरेन जमीर	इंडियन नेशनल काँग्रेस
ओडिशा			
280.	1-वारगढ़	प्रदीप पुरोहित	भारतीय जनता पार्टी
281.	2-सुन्दरगढ़ (अ.ज.जा.)	जुएल ओराम	भारतीय जनता पार्टी
282.	3-सम्बलपुर	धर्मेन्द्र प्रधान	भारतीय जनता पार्टी
283.	4-क्योन्झर (अ.ज.जा.)	अनंत नायक	भारतीय जनता पार्टी
284.	5-मयूरभंज (अ.ज.जा.)	नवा चरण माझी	भारतीय जनता पार्टी
285.	6-बालासोर	प्रताप चंद्र सारंगी	भारतीय जनता पार्टी
286.	7-भाद्रक (अ.जा.)	अविमन्यु सेठी	भारतीय जनता पार्टी
287.	8-जाजपुर (अ.जा.)	रवीन्द्र नारायण बेहेरा	भारतीय जनता पार्टी
288.	9-धेन्कानल	रुद्र नारायण पाणि	भारतीय जनता पार्टी
289.	10-बोलंगीर	संगीता कुमारी सिंह देव	भारतीय जनता पार्टी
290.	11-कालाहाण्डी	मालविका देवी	भारतीय जनता पार्टी
291.	12-नबरंगपुर (अ.ज.जा.)	बलभद्र माझी	भारतीय जनता पार्टी
292.	13-कंधामल	सुकांत कुमार पाणिग्रही	भारतीय जनता पार्टी
293.	14-कटक	भर्तृहरि महाताब	भारतीय जनता पार्टी
294.	15-केन्द्रपाड़ा	बैजयंत पांडा	भारतीय जनता पार्टी
295.	16-जगतसिंहपुर (अ.जा.)	विभु प्रसाद तराई	भारतीय जनता पार्टी
296.	17-पुरी	संबित पात्रा	भारतीय जनता पार्टी
297.	18-भुवनेश्वर	अपराजिता सारंगी	भारतीय जनता पार्टी
298.	19-अस्का	अनिता शुभदर्शिनी	भारतीय जनता पार्टी
299.	20-बरहामपुर	डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही	भारतीय जनता पार्टी
300.	21-कोरापुट (अ.ज.जा.)	सप्तगिरि शंकर उलका	इंडियन नेशनल काँग्रेस
पंजाब			
301.	1-गुरदासपुर	सुखजिंदर सिंह रंधावा	इंडियन नेशनल काँग्रेस
302.	2-अमृतसर	गुरजीत सिंह औजला	इंडियन नेशनल काँग्रेस
303.	3-खडूर साहिब	अमृतपाल सिंह	निर्दलीय

304.	4-जालन्धर (अ.जा.)	चरणजीत सिंह चन्नी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
305.	5-होशियारपुर (अ.जा.)	डॉ. राज कुमार चब्बेवाल	आम आदमी पार्टी
306.	6-आनन्दपुर साहिब	मलविंदर सिंह कंग	आम आदमी पार्टी
307.	7-लुधियाना	अमरिंदर सिंह राजा वारिंग	इंडियन नेशनल काँग्रेस
308.	8-फतेहगढ़ साहिब (अ.जा.)	अमर सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
309.	9-फरीदकोट (अ.जा.)	सरबजीत सिंह खालसा	निर्दलीय
310.	10-फिरोज़पुर	शेर सिंह घुबाया	इंडियन नेशनल काँग्रेस
311.	11-भटिण्डा	हरसिमरत कौर बादल	शिरोमणि अकाली दल
312.	12-संगरूर	गुरमीत सिंह मीत हायेर	आम आदमी पार्टी
313.	13-पटियाला	डॉ. धर्मवीर गांधी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
<b>राजस्थान</b>			
314.	1-गंगानगर (अ.जा.)	कुलदीप इन्दौरा	इंडियन नेशनल काँग्रेस
315.	2-बीकानेर (अ.जा.)	अर्जुन राम मेघवाल	भारतीय जनता पार्टी
316.	3-चूरू	राहुल कस्वां	इंडियन नेशनल काँग्रेस
317.	4-झुन्झुनू	वृजेन्द्र सिंह ओला	इंडियन नेशनल काँग्रेस
318.	5-सीकर	अमराराम	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (माक्सिसिस्ट)
319.	6-जयपुर ग्रामीण	राव राजेन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
320.	7-जयपुर	मंजू शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
321.	8-अलवर	भूपेन्द्र यादव	भारतीय जनता पार्टी
322.	9-भरतपुर (अ.जा.)	संजना जाटव	इंडियन नेशनल काँग्रेस
323.	10-करौली-धौलपुर (अ.जा.)	भजन लाल जाटव	इंडियन नेशनल काँग्रेस
324.	11-दौसा (अ.ज.जा.)	मुरारी लाल मीना	इंडियन नेशनल काँग्रेस
325.	12-टोंक-सवाई माधोपुर	हरीश चन्द्र मीना	इंडियन नेशनल काँग्रेस
326.	13-अजमेर	भागीरथ चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
327.	14-नागौर	हनुमान बेनीवाल	राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक पार्टी
328.	15-पाली	पी. पी. चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
329.	16-जोधपुर	गजेन्द्र सिंह शेखावत	भारतीय जनता पार्टी
330.	17-बाड़मेर	उस्मेदा राम बेनीवाल	इंडियन नेशनल काँग्रेस

331.	18-जालोर	लुम्बाराम	भारतीय जनता पार्टी
332.	19-उदयपुर (अ.ज.जा.)	मन्ना लाल रावत	भारतीय जनता पार्टी
333.	20-बांसवाड़ा (अ.ज.जा.)	राज कुमार रोट	भारत आदिवासी पार्टी
334.	21-चित्तौड़गढ़	चन्द्र प्रकाश जोशी	भारतीय जनता पार्टी
335.	22-राजसमन्द	महिमा कुमारी मेवाड़	भारतीय जनता पार्टी
336.	23-भीलवाड़ा	दामोदर अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी
337.	24-कोटा	ओम बिरला	भारतीय जनता पार्टी
338.	25-झालावाड़-बारां	दुष्यन्त सिंह	भारतीय जनता पार्टी
<b>सिक्किम</b>			
339.	1-सिक्किम	इन्द्र हांग सुब्बा	सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा
<b>तमिलनाडु</b>			
340.	1-तिरुवल्लुर (अ.जा.)	सशिकांत सेंथिल	इंडियन नेशनल काँग्रेस
341.	2-चेन्नई उत्तर	डॉ. कलानिधि वीरास्वामी	द्रविड मुन्नेत्र कडगम
342.	3-चेन्नई दक्षिण	टी. सुमाथी (उर्फ) थमिज़ाची थंगापांडियन	द्रविड मुन्नेत्र कडगम
343.	4-चेन्नई केन्द्रीय	दयानिधि मारन	द्रविड मुन्नेत्र कडगम
344.	5-श्रीपेरुम्बुडुर	टी.आर.बालू	द्रविड मुन्नेत्र कडगम
345.	6-कांचीपुरम (अ.जा.)	सेल्वम. जी	द्रविड मुन्नेत्र कडगम
346.	7-अराकोन्नम	एस. जगश्रत्त्वकन	द्रविड मुन्नेत्र कडगम
347.	8-वेल्लोर	डी.एम.कथिर आनंद	द्रविड मुन्नेत्र कडगम
348.	9-कृष्णागिरी	गोपीनाथ. के	इंडियन नेशनल काँग्रेस
349.	10-धर्मापुरी	मणि. ए.	द्रविड मुन्नेत्र कडगम
350.	11-तिरुवन्नामलाई	अन्नादुरई, सी.एन.	द्रविड मुन्नेत्र कडगम
351.	12-अरानी	थरानिवेंथन एम एस	द्रविड मुन्नेत्र कडगम
352.	13-विलुपुरम् (अ.जा.)	रविकुमार. डी	विदुथलाई चिरुथईगल काची
353.	14-कल्लाकुरिची	मलैयारासन. डी	द्रविड मुन्नेत्र कडगम
354.	15-सलेम	सेल्वगणपति. टी. एम	द्रविड मुन्नेत्र कडगम
355.	16-नामाक्कल	मथेश्वरन वी एस	द्रविड मुन्नेत्र कडगम
356.	17-इरोड	के.ई.प्रकाश	द्रविड मुन्नेत्र कडगम

357.	18-तिरुप्पुर	सुब्बारायण, के.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया
358.	19-नीलगिरि (अ.जा.)	राजा. ए	द्रविड मुन्नेत्र कडगम
359.	20-कोयम्बटूर	गणपति राजकुमार, पी.	द्रविड मुन्नेत्र कडगम
360.	21-पोल्लाची	ईश्वरसामी, के.	द्रविड मुन्नेत्र कडगम
361.	22-डिण्डीगुल	सचिथानन्थम. आर	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (माक्सिसिस्ट)
362.	23-करूर	जोथीमनी. एस	इंडियन नेशनल काँग्रेस
363.	24-तिरुचिरापल्ली	दुरई वाइको	मरूमलार्ची द्रविड मुनेत्र कडगम
364.	25-पेरम्बलुर	अरुण नेहरू	द्रविड मुन्नेत्र कडगम
365.	26-कुड्डालोर	एम.के. विष्णुप्रसाद	इंडियन नेशनल काँग्रेस
366.	27-चिदम्बरम (अ.जा.)	तिरुमावलवन. थोल	विदुथलाई चिरुथईगल काची
367.	28-मइलादुथुरई	सुधा.आर	इंडियन नेशनल काँग्रेस
368.	29-नागापट्टिनम (अ.जा.)	सेल्वराज. वी	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
369.	30-थन्जावुर	मुरासोली, एस.	द्रविड मुन्नेत्र कडगम
370.	31-शिवगंगा	कार्ति पी चिदम्बरम	इंडियन नेशनल काँग्रेस
371.	32-मदुरई	वेंकटेशन एस	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (माक्सिसिस्ट)
372.	33-थेनी	थंगा तमिलसेल्वन	द्रविड मुन्नेत्र कडगम
373.	34-विरुधुनगर	मनिकम टैगोर, वी.	इंडियन नेशनल काँग्रेस
374.	35-रामानाथपुरम	नवस्कनि.के	इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग
375.	36-थूथुक्कुडी	कनिमोझी करुणानिधि	द्रविड मुन्नेत्र कडगम
376.	37-टेनकासी (अ.जा.)	डॉ. रानी श्रीकुमार	द्रविड मुन्नेत्र कडगम
377.	38-तिरुनेलवेली	रॉबर्ट ब्रूस, सी.	इंडियन नेशनल काँग्रेस
378.	39-कन्याकुमारी	विजयकुमार (उर्फ) विजय वसंत	इंडियन नेशनल काँग्रेस
<b>तेलंगाना</b>			
379.	1-आदिलाबाद (अ.ज.जा.)	गोडम नागेश	भारतीय जनता पार्टी
380.	2-पेड्डापल्ले (अ.जा.)	वामसि कृष्णा गद्दाम	इंडियन नेशनल काँग्रेस
381.	3-करीमनगर	बंदी संजय कुमार	भारतीय जनता पार्टी
382.	4-निज़ामाबाद	अरविंद धर्मपुरी	भारतीय जनता पार्टी



383.	5-ज़हीराबाद	सुरेश कुमार शेतकर	इंडियन नेशनल काँग्रेस
384.	6-मेडक	माधवनेनी रघुनंदन राव	भारतीय जनता पार्टी
385.	7-मल्काजगिरि	इटाला राजेंद्र	भारतीय जनता पार्टी
386.	8-सिकन्दराबाद	जी. किशन रेड्डी	भारतीय जनता पार्टी
387.	9-हैदराबाद	असादुद्दीन ओवैसी	ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन
388.	10-चेवेल्ला	कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी	भारतीय जनता पार्टी
389.	11-महबूबनगर	अरुणा. डी. के	भारतीय जनता पार्टी
390.	12-नगरकुरनूल (अ.जा.)	डॉ. मल्लू रवि	इंडियन नेशनल काँग्रेस
391.	13-नलगोन्डा	कुंदुरु रघुवीर	इंडियन नेशनल काँग्रेस
392.	14-भोंगीर	चमला किरण कुमार रेड्डी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
393.	15-वारंगल (अ.जा.)	काडियम काव्या	इंडियन नेशनल काँग्रेस
394.	16-महाबूबाबाद (अ.ज.जा.)	बलराम नायक पोरिका	इंडियन नेशनल काँग्रेस
395.	17-खम्माम	रामसहायम रघुराम रेड्डी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
<b>त्रिपुरा</b>			
396.	1-त्रिपुरा पश्चिम	बिप्लब कुमार देब	भारतीय जनता पार्टी
397.	2-त्रिपुरा पूर्व (अ.ज.जा.)	कृति देवी देबबर्मन	भारतीय जनता पार्टी
<b>उत्तर प्रदेश</b>			
398.	1-सहारनपुर	इमरान मसूद	इंडियन नेशनल काँग्रेस
399.	2-कैराना	इकरा चौधरी	समाजवादी पार्टी
400.	3-मुजफ्फरनगर	हरेन्द्र सिंह मलिक	समाजवादी पार्टी
401.	4-बिजनौर	चंदन चौहान	राष्ट्रीय लोक दल
402.	5-नगीना (अ.जा.)	चन्द्रशेखर	आजाद समाज पार्टी (कांशी राम)
403.	6-मुरादाबाद	रूचि वीरा	समाजवादी पार्टी
404.	7-रामपुर	मोहिब्बुल्लाह	समाजवादी पार्टी
405.	8-सम्भल	ज़ियाउर्रहमान	समाजवादी पार्टी
406.	9-अमरोहा	कंवर सिंह तंवर	भारतीय जनता पार्टी
407.	10-मेरठ	अरुण गोविल	भारतीय जनता पार्टी
408.	11-बागपत	डॉ. राजकुमार सांगवान	राष्ट्रीय लोक दल

409.	12-गाजियाबाद	अतुल गर्ग	भारतीय जनता पार्टी
410.	13-गौतम बुद्ध नगर	डा. महेश शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
411.	14-बुलन्दशहर (अ.जा.)	डॉ. भोला सिंह	भारतीय जनता पार्टी
412.	15-अलीगढ़	सतीश कुमार गौतम	भारतीय जनता पार्टी
413.	16-हाथरस (अ.जा.)	अनूप प्रधान बाल्मीकी	भारतीय जनता पार्टी
414.	17-मथुरा	हेमामालिनी धर्मेन्द्र देओल	भारतीय जनता पार्टी
415.	18-आगरा (अ.जा.)	प्रो. एस.पी. सिंह बघेल	भारतीय जनता पार्टी
416.	19-फतेहपुर सीकरी	राजकुमार चाहर	भारतीय जनता पार्टी
417.	20-फिरोज़ाबाद	अक्षय यादव	समाजवादी पार्टी
418.	21-मैनपुरी	डिम्पल यादव	समाजवादी पार्टी
419.	22-एटा	देवेश शाक्य	समाजवादी पार्टी
420.	23-बदायूं	आदित्य यादव	समाजवादी पार्टी
421.	24-आँवला	नीरज मौर्य	समाजवादी पार्टी
422.	25-बरेली	छत्रपाल सिंह गंगवार	भारतीय जनता पार्टी
423.	26-पीलीभीत	जितिन प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
424.	27-शाहजहाँपुर (अ.जा.)	अरूण कुमार सागर	भारतीय जनता पार्टी
425.	28-खीरी	उत्कर्ष वर्मा 'मधुर'	समाजवादी पार्टी
426.	29-धौरहरा	आनंद भदौरिया	समाजवादी पार्टी
427.	30-सीतापुर	राकेश राठौर	इंडियन नेशनल काँग्रेस
428.	31-हरदोई (अ.जा.)	जय प्रकाश	भारतीय जनता पार्टी
429.	32-मिथिख (अ.जा.)	अशोक कुमार रावत	भारतीय जनता पार्टी
430.	33-उन्नाव	स्वामी सच्चिदानन्द हरि साक्षी	भारतीय जनता पार्टी
431.	34-मोहनलालगंज (अ.जा.)	आर. के. चौधरी	समाजवादी पार्टी
432.	35-लखनऊ	राज नाथ सिंह	भारतीय जनता पार्टी
433.	36-राय बरेली	राहुल गांधी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
434.	37-अमेठी	किशोरी लाल	इंडियन नेशनल काँग्रेस
435.	38-सुल्तानपुर	रामभुआल निषाद	समाजवादी पार्टी
436.	39-प्रतापगढ़	शिव पाल सिंह पटेल (डा. एस पी सिंह)	समाजवादी पार्टी

437.	40-फर्रुखाबाद	मुकेश राजपूत	भारतीय जनता पार्टी
438.	41-इटावा (अ.जा.)	जितेन्द्र कुमार दोहरे	समाजवादी पार्टी
439.	42-कन्नौज	अखिलेश यादव	समाजवादी पार्टी
440.	43-कानपुर	रमेश अवस्थी	भारतीय जनता पार्टी
441.	44-अकबरपुर	देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह	भारतीय जनता पार्टी
442.	45-जालौन (अ.जा.)	नारायण दास अहिरवार	समाजवादी पार्टी
443.	46-झांसी	अनुराग शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
444.	47-हमीरपुर	अजेन्द्र सिंह लोधी	समाजवादी पार्टी
445.	48-बांदा	कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल	समाजवादी पार्टी
446.	49-फतेहपुर	नरेश चन्द्र उत्तम पटेल	समाजवादी पार्टी
447.	50-कौशाम्बी (अ.जा.)	पुष्पेन्द्र सरोज	समाजवादी पार्टी
448.	51-फूलपुर	प्रवीण पटेल	भारतीय जनता पार्टी
449.	52-इलाहाबाद	उज्ज्वल रमण सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
450.	53-बाराबंकी (अ.जा.)	तनुज पुनिया	इंडियन नेशनल काँग्रेस
451.	54-फैजाबाद	अवधेश प्रसाद	समाजवादी पार्टी
452.	55-अम्बेडकरनगर	लालजी वर्मा	समाजवादी पार्टी
453.	56-बहराइच (अ.जा.)	आनन्द कुमार	भारतीय जनता पार्टी
454.	57-कैसरगंज	करण भूषण सिंह	भारतीय जनता पार्टी
455.	58-श्रावस्ती	राम शिरोमणि वर्मा	समाजवादी पार्टी
456.	59-गोन्डा	कीर्तिवर्धन सिंह	भारतीय जनता पार्टी
457.	60-डुमरियागंज	जगदम्बिका पाल	भारतीय जनता पार्टी
458.	61-बस्ती	राम प्रसाद चौधरी	समाजवादी पार्टी
459.	62-सन्त कबीर नगर	लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद	समाजवादी पार्टी
460.	63-महराजगंज	पंकज चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
461.	64-गोरखपुर	रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन	भारतीय जनता पार्टी
462.	65-कुशीनगर	विजय कुमार दूबे	भारतीय जनता पार्टी
463.	66-देवरिया	शशांक मणि	भारतीय जनता पार्टी
464.	67-बांसगांव (अ.जा.)	कमलेश पासवान	भारतीय जनता पार्टी

465.	68-लालगंज (अ.जा.)	दरोगा प्रसाद सरोज	समाजवादी पार्टी
466.	69-आज़मगढ़	धर्मेन्द्र यादव	समाजवादी पार्टी
467.	70-घोसी	राजीव राय	समाजवादी पार्टी
468.	71-सलेमपुर	रमाशंकर राजभर	समाजवादी पार्टी
469.	72-बलिया	सनातन पाण्डेय	समाजवादी पार्टी
470.	73-जौनपुर	बाबू सिंह कुशवाहा	समाजवादी पार्टी
471.	74-मछलीशहर (अ.जा.)	प्रिया सरोज	समाजवादी पार्टी
472.	75-गाजीपुर	अफजाल अंसारी	समाजवादी पार्टी
473.	76-चन्दौली	बीरेन्द्र सिंह	समाजवादी पार्टी
474.	77-वाराणसी	नरेन्द्र मोदी	भारतीय जनता पार्टी
475.	78-भदोही	डा. विनोद कुमार बिन्द	भारतीय जनता पार्टी
476.	79-मिर्जापुर	अनुप्रिया पटेल	अपना दल (सोनेलाल)
477.	80-राबट्सगंज (अ.जा.)	छोटेलाल	समाजवादी पार्टी
<b>उत्तराखण्ड</b>			
478.	1-टिहरी गढ़वाल	माला राज्य लक्ष्मी शाह	भारतीय जनता पार्टी
479.	2-गढ़वाल	अनिल बलूनी	भारतीय जनता पार्टी
480.	3-अल्मोड़ा (अ.जा.)	अजय टम्टा	भारतीय जनता पार्टी
481.	4-नैनीताल-ऊधमसिंह नगर	अजय भट्ट	भारतीय जनता पार्टी
482.	5-हरिद्वार	त्रिवेन्द्र सिंह रावत	भारतीय जनता पार्टी
<b>पश्चिम बंगाल</b>			
483.	1-कूच बिहार (अ.जा.)	जगदीश चन्द्र बर्मा बसुनिया	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
484.	2-अलीपुर द्वारस (अ.ज.जा.)	मनोज तिग्गा	भारतीय जनता पार्टी
485.	3-जलपाईगुडी (अ.जा.)	डॉ. जयंत कुमार राँय	भारतीय जनता पार्टी
486.	4-दार्जिलिंग	राजू बिस्टा	भारतीय जनता पार्टी
487.	5-रायगंज	कार्तिक चंद्र पॉल	भारतीय जनता पार्टी
488.	6-बालूरघाट	सुकांता मजूमदार	भारतीय जनता पार्टी
489.	7-माल्दहा उत्तर	खगेन मुर्मू	भारतीय जनता पार्टी
490.	8-माल्दहा दक्षिण	ईशा खान चौधरी	इंडियन नेशनल काँग्रेस

491.	9-जंगीपुर	खलीलुर रहमान	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
492.	10-बहरामपुर	पठान युसुफ	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
493.	11-मुर्शिदाबाद	अबू ताहेर खान	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
494.	12-कृष्णानगर	महुआ मोइत्रा	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
495.	13-रणघाट (अ.जा.)	जगन्नाथ सरकार	भारतीय जनता पार्टी
496.	14-बनगांव (अ.जा.)	शान्तनु ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
497.	15-बैरकपुर	पार्था भौमिक	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
498.	16-दमदम	सौगत रॉय	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
499.	17-बारासात	डॉ. काकोली घोष दस्तीदार	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
500.	18-बसीरहाट	एसके नुरुल इस्लाम	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
501.	19-जयनगर (अ.जा.)	प्रतिमा मंडल	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
502.	20-मथुरापुर (अ.जा.)	बापी हलदर	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
503.	21-डायमण्ड हारबर	अभिषेक बनर्जी	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
504.	22-जादवपुर	सयानी घोष	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
505.	23-कोलकाता दक्षिण	माला रॉय	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
506.	24-कोलकाता उत्तर	बंद्योपाध्याय सुदीप	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
507.	25-हावड़ा	प्रसून बनर्जी	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
508.	26-उलुबेरिया	सज़दा अहमद	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
509.	27-श्रीरामपुर	कल्याण बनर्जी	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
510.	28-हुगली	रचना बनर्जी	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
511.	29-आरामबाग (अ.जा.)	बाग मिताली	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
512.	30-तामलुक	अभिजीत गंगोपाध्याय	भारतीय जनता पार्टी
513.	31-कांथी	अधिकारी सौमेंदु	भारतीय जनता पार्टी
514.	32-घाटल	अधिकारी दीपक (देव)	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
515.	33-झाडग्राम (अ.ज.जा.)	कालीपद सरेन (खेरवाल)	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
516.	34-मेदीनिपुर	जूने मलियाह	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
517.	35-पुरुलिया	ज्योतिर्मय सिंह महातो	भारतीय जनता पार्टी
518.	36-बंकुरा	अरूप चक्रवर्ती	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस

519.	37-बिश्नुपुर (अ.जा.)	खान सौमित्र	भारतीय जनता पार्टी
520.	38-बर्धमान पूर्व (अ.जा.)	डा. शर्मिला सरकार	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
521.	39-बर्धमान दुर्गापुर	आजाद कीर्ति झा	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
522.	40-आसनसोल	शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
523.	41-बोलपुर (अ.जा.)	असित कुमार मल	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
524.	42-बीरभूम	सतब्दी राँय	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस
<b>अंडमान और निकोबार द्वीप समूह</b>			
525.	1-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	बिष्णु पद राय	भारतीय जनता पार्टी
<b>चंडीगढ़</b>			
526.	1-चंडीगढ़	मनीष तिवारी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
<b>दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव</b>			
527.	1-दमन और दीव	पटेल उमेशभाई बाबूभाई	निर्दलीय
528.	2-दादरा और नागर हवेली (अ.ज.जा.)	देलकर कलाबेन मोहनभाई	भारतीय जनता पार्टी
<b>जम्मू एवं कश्मीर</b>			
529.	1-बारामूला	अब्दुल रशीद शेख	निर्दलीय
530.	2-श्रीनगर	आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी	जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल काँग्रेस
531.	3-अनन्तनाग-राजौरी	मियां अलताफ अहमद	जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल काँग्रेस
532.	4-ऊधमपुर	डॉ. जितेंद्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
533.	5-जम्मू	जुगल किशोर	भारतीय जनता पार्टी
<b>लद्दाख</b>			
534.	1-लद्दाख	मोहम्मद हनीफा	निर्दलीय
<b>लक्षद्वीप</b>			
535.	1-लक्षद्वीप (अ.ज.जा.)	मुहम्मद हमदुल्ला सईद	इंडियन नेशनल काँग्रेस
<b>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली</b>			
536.	1-चाँदनी चौक	प्रवीन खण्डेलवाल	भारतीय जनता पार्टी
537.	2-उत्तर-पूर्व दिल्ली	मनोज तिवारी	भारतीय जनता पार्टी
538.	3-पूर्व दिल्ली	हर्ष मल्होत्रा	भारतीय जनता पार्टी

539.	4-नई दिल्ली	बांसुरी स्वराज	भारतीय जनता पार्टी
540.	5-उत्तर-पश्चिमी दिल्ली (अ.जा.)	योगेन्द्र चांदोलिया	भारतीय जनता पार्टी
541.	6-पश्चिम दिल्ली	कमलजीत सहरावत	भारतीय जनता पार्टी
542.	7-दक्षिण दिल्ली	रामवीर सिंह बिधूड़ी	भारतीय जनता पार्टी
<b>पुडुचेरी</b>			
543.	1-पुडुचेरी	वे. वैथिलिंगम	इंडियन नेशनल काँग्रेस

[सं. 308/2024/ईपीएस]

आदेश से,

नीतेश व्यास, वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त

**ELECTION COMMISSION OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th June, 2024

**O.N. 151(E).**—Whereas, in pursuance of the Notifications No. H-11024(4)/2023-Leg.II, issued by the President of India on 20<sup>th</sup> March, 2024, 28<sup>th</sup> March, 2024, 12<sup>th</sup> April, 2024, 18<sup>th</sup> April, 2024, 26<sup>th</sup> April, 2024, 29<sup>th</sup> April, 2024 and 7<sup>th</sup> May, 2024, under sub-section (2) of Section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has been held for the purpose of constituting new House of the People; and

Whereas, the results of the election to the House of the People in respect of all Parliamentary Constituencies have been declared by the Returning Officers concerned; and

Now, therefore, in pursuance of Section 73 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby notifies the name of the members elected in respect of those Constituencies, alongwith their party affiliations, if any, in the **SCHEDULE** annexed to this Notification.

**SCHEDULE**(Enclosed to Notification No. 308/2024/EPD dated 06<sup>th</sup> June, 2024 of the Election Commission of India)

Sl. No.	No. and Name of Parliamentary Constituency	Name of the Elected Member	Party Affiliation (If any)
<b>Andhra Pradesh</b>			
1.	1-Araku (ST)	Gumma Thanuja Rani	Yuvajana Sramika Rythu Congress Party
2.	2-Srikakulam	Kinjarapu Rammohan Naidu	Telugu Desam
3.	3-Vizianagaram	Appalanaidu Kaliseti	Telugu Desam
4.	4-Visakhapatnam	Sribharat Mathukumili	Telugu Desam
5.	5-Anakapalle	C.M.Ramesh	Bharatiya Janata Party
6.	6-Kakinada	Tangella Uday Srinivas (Tea Time Uday)	Janasena Party
7.	7-Amalapuram (SC)	G M Harish (Balayogi)	Telugu Desam
8.	8-Rajahmundry	Daggubati Purandheshwari	Bharatiya Janata Party
9.	9-Narsapuram	Bhupathi Raju Srinivasa Varma (B.J.P. Varma)	Bharatiya Janata Party
10.	10-Eluru	Putta Mahesh Kumar	Telugu Desam

Sl. No.	No. and Name of Parliamentary Constituency	Name of the Elected Member	Party Affiliation (If any)
11.	11-Machilipatnam	Balashowry Vallabhaneni	Janasena Party
12.	12-Vijayawada	Kesineni Sivanath (Chinni)	Telugu Desam
13.	13-Guntur	Dr. Chandra Sekhar Pemmasani	Telugu Desam
14.	14-Narasaraopet	Lavu Sri Krishna Devarayalu	Telugu Desam
15.	15-Bapatla (SC)	Krishna Prasad Tenneti	Telugu Desam
16.	16-Ongole	Magunta Sreenivasulu Reddy	Telugu Desam
17.	17-Nandyal	Dr. Byreddy Shabari	Telugu Desam
18.	18-Kurnool	Bastipati Nagaraju (Panchalingala)	Telugu Desam
19.	19-Anantapur	Ambica G Lakshminarayana Valmiki	Telugu Desam
20.	20-Hindupur	B.K.Parthasarathi	Telugu Desam
21.	21-Kadapa	Y. S. Avinash Reddy	Yuvajana Sramika Rythu Congress Party
22.	22-Nellore	Prabhakar Reddy Vemireddy	Telugu Desam
23.	23-Tirupati (SC)	Gurumoorthy Maddila	Yuvajana Sramika Rythu Congress Party
24.	24-Rajampet	P.V.Midhun Reddy	Yuvajana Sramika Rythu Congress Party
25.	25-Chittoor (SC)	Daggumalla Prasada Rao	Telugu Desam
<b>Arunachal Pradesh</b>			
26.	1-Arunachal West	Kiren Rijiju	Bharatiya Janata Party
27.	2-Arunachal East	Tapir Gao	Bharatiya Janata Party
<b>Assam</b>			
28.	1-Kokrajhar (ST)	Joyanta Basumatary	United People's Party, Liberal
29.	2-Dhubri	Rakibul Hussain	Indian National Congress
30.	3-Barpeta	Phani Bhusan Choudhury	Asom Gana Parishad
31.	4-Darrang-Udalguri	Dilip Saikia	Bharatiya Janata Party
32.	5-Guwahati	Bijuli Kalita Medhi	Bharatiya Janata Party
33.	6-Diphu (ST)	Amarsing Tisso	Bharatiya Janata Party
34.	7-Karimganj	Kripanath Mallah	Bharatiya Janata Party
35.	8-Silchar (SC)	Parimal Suklabaidya	Bharatiya Janata Party
36.	9-Nagaon	Pradyut Bordoloi	Indian National Congress
37.	10-Kaziranga	Kamakhya Prasad Tasa	Bharatiya Janata Party
38.	11-Sonitpur	Ranjit Dutta	Bharatiya Janata Party
39.	12-Lakhimpur	Pradan Baruah	Bharatiya Janata Party
40.	13-Dibrugarh	Sarbananda Sonowal	Bharatiya Janata Party
41.	14-Jorhat	Gaurav Gogoi	Indian National Congress
<b>Bihar</b>			
42.	1-Valmiki Nagar	Sunil Kumar	Janata Dal (United)
43.	2-Paschim Champaran	Dr. Sanjay Jaiswal	Bharatiya Janata Party
44.	3-Purvi Champaran	Radha Mohan Singh	Bharatiya Janata Party
45.	4-Sheohar	Lovely Anand	Janata Dal (United)
46.	5-Sitamarhi	Devesh Chandra Thakur	Janata Dal (United)
47.	6-Madhubani	Ashok Kumar Yadav	Bharatiya Janata Party



Sl. No.	No. and Name of Parliamentary Constituency	Name of the Elected Member	Party Affiliation (If any)
48.	7-Jhanjharpur	Ramprit Mandal	Janata Dal (United)
49.	8-Supaul	Dileshwar Kamait	Janata Dal (United)
50.	9-Araria	Pradeep Kumar Singh	Bharatiya Janata Party
51.	10-Kishanganj	Mohammad Jawed	Indian National Congress
52.	11-Katihar	Tariq Anwar	Indian National Congress
53.	12-Purnia	Rajesh Ranjan alias Pappu Yadav	Independent
54.	13-Madhepura	Dinesh Chandra Yadav	Janata Dal (United)
55.	14-Darbhanga	Gopal Jee Thakur	Bharatiya Janata Party
56.	15-Muzaffarpur	Raj Bhushan Choudhary	Bharatiya Janata Party
57.	16-Vaishali	Veena Devi	Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
58.	17-Gopalganj (SC)	Dr. Alok Kumar Suman	Janata Dal (United)
59.	18-Siwan	Vijaylakshmi Devi	Janata Dal (United)
60.	19-Maharajganj	Janardan Singh "Sigriwal"	Bharatiya Janata Party
61.	20-Saran	Rajiv Pratap Rudy	Bharatiya Janata Party
62.	21-Hajipur (SC)	Chirag Paswan	Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
63.	22-Ujiarpur	Nityanand Rai	Bharatiya Janata Party
64.	23-Samastipur (SC)	Shambhavi	Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
65.	24-Begusarai	Giriraj Singh	Bharatiya Janata Party
66.	25-Khagaria	Rajesh Verma	Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
67.	26-Bhagalpur	Ajay Kumar Mandal	Janata Dal (United)
68.	27-Banka	Giridhari Yadav	Janata Dal (United)
69.	28-Munger	Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh	Janata Dal (United)
70.	29-Nalanda	Kaushalendra Kumar	Janata Dal (United)
71.	30-Patna Sahib	Ravi Shankar Prasad	Bharatiya Janata Party
72.	31-Pataliputra	Misha Bharti	Rashtriya Janata Dal
73.	32-Arrah	Sudama Prasad	Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation)
74.	33-Buxar	Sudhakar Singh	Rashtriya Janata Dal
75.	34-Sasaram (SC)	Manoj Kumar	Indian National Congress
76.	35-Karakat	Raja Ram Singh	Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation)
77.	36-Jahanabad	Surendra Prasad Yadav	Rashtriya Janata Dal
78.	37-Aurangabad	Abhay Kumar Sinha	Rashtriya Janata Dal
79.	38-Gaya (SC)	Jitan Ram Manjhi	Hindustani Awam Morcha (Secular)
80.	39-Nawada	Vivek Thakur	Bharatiya Janata Party
81.	40-Jamui (SC)	Arun Bharti	Lok Janshakti Party (Ram Vilas)
<b>Chhattisgarh</b>			
82.	1-Surguja (ST)	Chintamani Maharaj	Bharatiya Janata Party
83.	2-Raigarh (ST)	Radheshyam Rathiya	Bharatiya Janata Party

Sl. No.	No. and Name of Parliamentary Constituency	Name of the Elected Member	Party Affiliation (If any)
84.	3-Janjgir-Champa (SC)	Kamlesh Jangde	Bharatiya Janata Party
85.	4-Korba	Jyotsna Charandas Mahant	Indian National Congress
86.	5-Bilaspur	Tokhan Sahu	Bharatiya Janata Party
87.	6-Rajnandgaon	Santosh Pandey	Bharatiya Janata Party
88.	7-Durg	Vijay Baghel	Bharatiya Janata Party
89.	8-Raipur	Brijmohan Agrawal	Bharatiya Janata Party
90.	9-Mahasamund	Roop Kumari Choudhary	Bharatiya Janata Party
91.	10-Bastar (ST)	Mahesh Kashyap	Bharatiya Janata Party
92.	11-Kanker (ST)	Bhojraj Nag	Bharatiya Janata Party
<b>Goa</b>			
93.	1-North Goa	Shripad Yesso Naik	Bharatiya Janata Party
94.	2-South Goa	Captain Viriato Fernandes	Indian National Congress
<b>Gujarat</b>			
95.	1-Kachchh (SC)	Chavda Vinod Lakhamshi	Bharatiya Janata Party
96.	2-Banaskantha	Geniben Nagaji Thakor	Indian National Congress
97.	3-Patan	Dabhi Bharatsinhji Shankarji	Bharatiya Janata Party
98.	4-Mahesana	Haribhai Patel	Bharatiya Janata Party
99.	5-Sabarkantha	Shobhanaben Mahendrasinh Baraiya	Bharatiya Janata Party
100.	6-Gandhinagar	Amit Shah	Bharatiya Janata Party
101.	7-Ahmedabad East	Hasmukhbhai Patel (H.S.Patel)	Bharatiya Janata Party
102.	8-Ahmedabad West (SC)	Dineshbhai Makwana (Advocate)	Bharatiya Janata Party
103.	9-Surendranagar	Chandubhai Chhaganbhai Shihora	Bharatiya Janata Party
104.	10-Rajkot	Parshottambhai Rupala	Bharatiya Janata Party
105.	11-Porbandar	Dr. Mansukh Mandaviya	Bharatiya Janata Party
106.	12-Jamnagar	Poonamben Hematbhai Maadam	Bharatiya Janata Party
107.	13-Junagadh	Chudasama Rajeshbhai Naranbhai	Bharatiya Janata Party
108.	14-Amreli	Bharatbhai Manubhai Sutariya	Bharatiya Janata Party
109.	15-Bhavnagar	Nimuben Jayantibhai Bambhaniya (Nimuben Bambhaniya)	Bharatiya Janata Party
110.	16-Anand	Mitesh Patel (Bakabhai)	Bharatiya Janata Party
111.	17-Kheda	Devusinh Chauhan	Bharatiya Janata Party
112.	18-Panchmahal	Rajpalsinh Mahendrasinh Jadav	Bharatiya Janata Party
113.	19-Dahod (ST)	Jaswantsinh Sumanbhai Bhabhor	Bharatiya Janata Party
114.	20-Vadodara	Dr. Hemang Joshi	Bharatiya Janata Party
115.	21-Chhota Udaipur (ST)	Jashubhai Bhilubhai Rathva	Bharatiya Janata Party
116.	22-Bharuch	Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava	Bharatiya Janata Party
117.	23-Bardoli (ST)	Parbhubhai Nagarbhai Vasava	Bharatiya Janata Party
118.	24-Surat	Mukeshkumar Chandrakaant Dalal	Bharatiya Janata Party
119.	25-Navsari	C R Patil	Bharatiya Janata Party
120.	26-Valsad (ST)	Dhaval Laxmanbhai Patel	Bharatiya Janata Party
<b>Haryana</b>			
121.	1-Ambala (SC)	Varun Chaudhry	Indian National Congress
122.	2-Kurukshetra	Naveen Jindal	Bharatiya Janata Party

Sl. No.	No. and Name of Parliamentary Constituency	Name of the Elected Member	Party Affiliation (If any)
123.	3-Sirsa (SC)	Selja	Indian National Congress
124.	4-Hisar	Jai Parkash (J P)	Indian National Congress
125.	5-Karnal	Manohar Lal	Bharatiya Janata Party
126.	6-Sonipat	Satpal Brahamchari	Indian National Congress
127.	7-Rohtak	Deepender Singh Hooda	Indian National Congress
128.	8-Bhiwani-Mahendragarh	Dharambir Singh	Bharatiya Janata Party
129.	9-Gurgaon	Rao Inderjit Singh	Bharatiya Janata Party
130.	10-Faridabad	Krishan Pal	Bharatiya Janata Party
<b>Himachal Pradesh</b>			
131.	1-Kangra	Dr. Rajeev Bhardwaj	Bharatiya Janata Party
132.	2-Mandi	Kangna Ranaut	Bharatiya Janata Party
133.	3-Hamirpur	Anurag Singh Thakur	Bharatiya Janata Party
134.	4-Shimla (SC)	Suresh Kumar Kashyap	Bharatiya Janata Party
<b>Jharkhand</b>			
135.	1-Rajmahal (ST)	Vijay Kumar Hansdak	Jharkhand Mukti Morcha
136.	2-Dumka (ST)	Nalin Soren	Jharkhand Mukti Morcha
137.	3-Godda	Nishikant Dubey	Bharatiya Janata Party
138.	4-Chatra	Kali Charan Singh	Bharatiya Janata Party
139.	5-Kodarma	Annpurna Devi	Bharatiya Janata Party
140.	6-Giridih	Chandra Prakash Choudhary	AJSU Party
141.	7-Dhanbad	Dulu Mahato	Bharatiya Janata Party
142.	8-Ranchi	Sanjay Seth	Bharatiya Janata Party
143.	9-Jamshedpur	Bidyut Baran Mahato	Bharatiya Janata Party
144.	10-Singhbhum (ST)	Joba Majhi	Jharkhand Mukti Morcha
145.	11-Khunti (ST)	Kali Charan Munda	Indian National Congress
146.	12-Lohardaga (ST)	Sukhdeo Bhagat	Indian National Congress
147.	13-Palamu (SC)	Vishnu Dayal Ram	Bharatiya Janata Party
148.	14-Hazaribagh	Manish Jaiswal	Bharatiya Janata Party
<b>Karnataka</b>			
149.	1-Chikkodi	Priyanka Satish Jarkiholi	Indian National Congress
150.	2-Belgaum	Jagadish Shettar	Bharatiya Janata Party
151.	3-Bagalkot	Gaddigoudar. Parvatagouda. Chandanagouda.	Bharatiya Janata Party
152.	4-Bijapur (SC)	Ramesh Jigajinagi	Bharatiya Janata Party
153.	5-Gulbarga (SC)	Radhakrishna	Indian National Congress
154.	6-Raichur (ST)	G. Kumar Naik.	Indian National Congress
155.	7-Bidar	Sagar Eshwar Khandre	Indian National Congress
156.	8-Koppal	K. Rajashekar Basavaraj Hitnal	Indian National Congress
157.	9-Bellary (ST)	E. Tukaram	Indian National Congress
158.	10-Haveri	Basavaraj Bommai	Bharatiya Janata Party
159.	11-Dharwad	Pralhad Joshi	Bharatiya Janata Party
160.	12-Uttara Kannada	Vishweshwar Hegde Kageri	Bharatiya Janata Party

Sl. No.	No. and Name of Parliamentary Constituency	Name of the Elected Member	Party Affiliation (If any)
161.	13-Davanagere	Dr. Prabha Mallikarjun	Indian National Congress
162.	14-Shimoga	B.Y.Raghavendra	Bharatiya Janata Party
163.	15-Udupi Chikmagalur	Kota Srinivas Poojary	Bharatiya Janata Party
164.	16-Hassan	Shreyas. M. Patel	Indian National Congress
165.	17-Dakshina Kannada	Captain Brijesh Chowta	Bharatiya Janata Party
166.	18-Chitradurga (SC)	Govind Makthappa Karjol	Bharatiya Janata Party
167.	19-Tumkur	V. Somanna	Bharatiya Janata Party
168.	20-Mandya	H.D. Kumaraswamy	Janata Dal (Secular)
169.	21-Mysore	Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar	Bharatiya Janata Party
170.	22-Chamarajanagar (SC)	Sunil Bose	Indian National Congress
171.	23-Bangalore Rural	Dr. C.N.Manjunath	Bharatiya Janata Party
172.	24-Bangalore North	Shobha Karandlaje	Bharatiya Janata Party
173.	25-Bangalore Central	P C Mohan	Bharatiya Janata Party
174.	26-Bangalore South	Tejasvi Surya	Bharatiya Janata Party
175.	27-Chikkballapur	Dr.K.Sudhakar	Bharatiya Janata Party
176.	28-Kolar (SC)	M. Mallesh Babu	Janata Dal (Secular)
<b>Kerala</b>			
177.	1-Kasaragod	Rajmohan Unnithan	Indian National Congress
178.	2-Kannur	K. Sudhakaran	Indian National Congress
179.	3-Vadakara	Shafi Parambil	Indian National Congress
180.	4-Wayanad	Rahul Gandhi	Indian National Congress
181.	5-Kozhikode	M.K. Raghavan	Indian National Congress
182.	6-Malappuram	E.T. Mohammed Basheer	Indian Union Muslim League
183.	7-Ponnani	Dr. M.P Abdussamad Samadani	Indian Union Muslim League
184.	8-Palakkad	V.K.Sreekandan	Indian National Congress
185.	9-Alathur (SC)	K. Radhakrishnan	Communist Party of India (Marxist)
186.	10-Thrissur	Suresh Gopi	Bharatiya Janata Party
187.	11-Chalakydy	Benny Behanan	Indian National Congress
188.	12-Ernakulam	Hibi Eden	Indian National Congress
189.	13-Idukki	Adv. Dean Kuriakose	Indian National Congress
190.	14-Kottayam	Adv. K Francis George	Kerala Congress
191.	15-Alappuzha	K. C Venugopal	Indian National Congress
192.	16-Mavelikkara (SC)	Kodikunnil Suresh	Indian National Congress
193.	17-Pathanamthitta	Anto Antony	Indian National Congress
194.	18-Kollam	N.K. Premachandran	Revolutionary Socialist Party
195.	19-Attingal	Adoor Prakash	Indian National Congress
196.	20-Thiruvananthapuram	Shashi Tharoor	Indian National Congress
<b>Madhya Pradesh</b>			
197.	1-Morena	Shivmangal Singh Tomar	Bharatiya Janata Party
198.	2-Bhind (SC)	Sandhya Ray	Bharatiya Janata Party
199.	3-Gwalior	Bharat Singh Kushwah	Bharatiya Janata Party

Sl. No.	No. and Name of Parliamentary Constituency	Name of the Elected Member	Party Affiliation (If any)
200.	4-Guna	Jyotiraditya M. Scindia	Bharatiya Janata Party
201.	5-Sagar	Dr. Lata Wankhede	Bharatiya Janata Party
202.	6-Tikamgarh (SC)	Dr. Virendra Kumar	Bharatiya Janata Party
203.	7-Damoh	Rahul Singh Lodhi	Bharatiya Janata Party
204.	8-Khajuraho	Vishnu Datt Sharma (V.D.Sharma)	Bharatiya Janata Party
205.	9-Satna	Ganesh Singh	Bharatiya Janata Party
206.	10-Rewa	Janardan Mishra	Bharatiya Janata Party
207.	11-Sidhi	Dr. Rajesh Mishra	Bharatiya Janata Party
208.	12-Shahdol (ST)	Smt. Himadri Singh	Bharatiya Janata Party
209.	13-Jabalpur	Ashish Dubey	Bharatiya Janata Party
210.	14-Mandla (ST)	Faggan Singh Kulaste	Bharatiya Janata Party
211.	15-Balaghat	Bharti Pardhi	Bharatiya Janata Party
212.	16-Chhindwara	Bunty Vivek Sahu	Bharatiya Janata Party
213.	17-Hoshangabad	Darshan Singh Choudhary	Bharatiya Janata Party
214.	18-Vidisha	Shivraj Singh Chouhan	Bharatiya Janata Party
215.	19-Bhopal	Alok Sharma	Bharatiya Janata Party
216.	20-Rajgarh	Rodmal Nagar	Bharatiya Janata Party
217.	21-Dewas (SC)	Mahendra Singh Solanky	Bharatiya Janata Party
218.	22-Ujjain (SC)	Anil Firojiya	Bharatiya Janata Party
219.	23-Mandsour	Sudheer Gupta	Bharatiya Janata Party
220.	24-Ratlam (ST)	Anita Nagarsingh Chouhan	Bharatiya Janata Party
221.	25-Dhar (ST)	Savitri Thakur	Bharatiya Janata Party
222.	26-Indore	Shankar Lalwani	Bharatiya Janata Party
223.	27-Khargone (ST)	Gajendra Singh Patel	Bharatiya Janata Party
224.	28-Khandwa	Gyaneshwar Patil	Bharatiya Janata Party
225.	29-Betul (ST)	Durgadas (D. D.) Uikey	Bharatiya Janata Party
<b>Maharashtra</b>			
226.	1-Nandurbar (ST)	Adv.Gowaal Kagada Padavi	Indian National Congress
227.	2-Dhule	Bachhav Shobha Dinesh	Indian National Congress
228.	3-Jalgaon	Smita Uday Wagh	Bharatiya Janata Party
229.	4-Raver	Khadse Raksha Nikhil	Bharatiya Janata Party
230.	5-Buldhana	Jadhav Prataprao Ganpatrao	Shiv Sena
231.	6-Akola	Anup Sanjay Dhotre	Bharatiya Janata Party
232.	7-Amravati (SC)	Balwant Baswant Wankhade	Indian National Congress
233.	8-Wardha	Amar Sharadrao Kale	Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar
234.	9-Ramtek (SC)	Shyamkumar (Babalu) Daulat Barve	Indian National Congress
235.	10-Nagpur	Nitin Jairam Gadkari	Bharatiya Janata Party
236.	11-Bhandara-Gondiya	Dr. Prashant Yadaora Padole	Indian National Congress
237.	12-Gadchiroli-Chimur (ST)	Dr. Kirsan Namdeo	Indian National Congress
238.	13-Chandrapur	Dhanorkar Pratibha Suresh alias Balubhau	Indian National Congress

Sl. No.	No. and Name of Parliamentary Constituency	Name of the Elected Member	Party Affiliation (If any)
239.	14-Yavatmal-Washim	Sanjay Uttamrao Deshmukh	Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackrey)
240.	15-Hingoli	Aashtikar Patil Nagesh Bapurao	Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackrey)
241.	16-Nanded	Chavan Vasanttrao Balwantrao	Indian National Congress
242.	17-Parbhani	Jadhav Sanjay (Bandu) Haribhau	Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackrey)
243.	18-Jalna	Kalyan Vaijinathrao Kale	Indian National Congress
244.	19-Aurangabad	Bhumare Sandipanrao Asaram	Shiv Sena
245.	20-Dindori (ST)	Bhaskar Murlidhar Bhagare	Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar
246.	21-Nashik	Rajabhau (Parag) Prakash Waje	Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackrey)
247.	22-Palghar (ST)	Dr. Hemant Vishnu Savara	Bharatiya Janata Party
248.	23-Bhiwandi	Balya Mama - Suresh Gopinath Mhatre	Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar
249.	24-Kalyan	Dr. Shrikant Eknath Shinde	Shiv Sena
250.	25-Thane	Naresh Ganpat Mhaske	Shiv Sena
251.	26-Mumbai North	Piyush Goyal	Bharatiya Janata Party
252.	27-Mumbai North-West	Ravindra Dattaram Waikar	Shiv Sena
253.	28-Mumbai North-East	Sanjay Dina Patil	Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackrey)
254.	29-Mumbai North-Central	Gaikwad Varsha Eknath	Indian National Congress
255.	30-Mumbai South-Central	Anil Yeshwant Desai	Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackrey)
256.	31-Mumbai South	Arvind Ganpat Sawant	Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackrey)
257.	32-Raigad	Tatkare Sunil Dattatrey	Nationalist Congress Party
258.	33-Maval	Shrirang Appa Chandu Barne	Shiv Sena
259.	34-Pune	Murlidhar Mohol	Bharatiya Janata Party
260.	35-Baramati	Supriya Sule	Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar
261.	36-Shirur	Dr. Amol Ramsing Kolhe	Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar
262.	37-Ahmednagar	Nilesh Dnyandev Lanke	Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar
263.	38-Shirdi (SC)	Bhausahab Rajaram Wakchaure	Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackrey)
264.	39-Beed	Bajrang Manohar Sonwane	Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar
265.	40-Osmanabad	Omprakash Bhupalsinh alias Pavan Rajenimbalkar	Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackrey)
266.	41-Latur (SC)	Dr. Kalge Shivaji Bandappa	Indian National Congress
267.	42-Solapur (SC)	Praniti Sushilkumar Shinde	Indian National Congress
268.	43-Madha	Mohite-Patil Dhairyasheel Rajsinh	Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar
269.	44-Sangli	Vishal (Dada) Prakashbapu Patil	Independent

Sl. No.	No. and Name of Parliamentary Constituency	Name of the Elected Member	Party Affiliation (If any)
270.	45-Satara	Shrimant Chh. Udayanraje Pratapsinhamaharaj Bhonsle	Bharatiya Janata Party
271.	46-Ratnagiri-Sindhudurg	Narayan Tatu Rane	Bharatiya Janata Party
272.	47-Kolhapur	Chhatrapati Shahu Shahaji	Indian National Congress
273.	48-Hatkanangle	Dhairyasheel Sambhajirao Mane	Shiv Sena
<b>Manipur</b>			
274.	1-Inner Manipur	Angomcha Bimol Akoijam	Indian National Congress
275.	2-Outer Manipur (ST)	Alfred Kanngam S. Arthur	Indian National Congress
<b>Meghalaya</b>			
276.	1-Shillong (ST)	Dr. Ricky Andrew J. Syngkon	Voice of the People Party
277.	2-Tura (ST)	Saleng A. Sangma	Indian National Congress
<b>Mizoram</b>			
278.	1-Mizoram (ST)	Richard Vanlalhmangaiha	Zoram People's Movement
<b>Nagaland</b>			
279.	1-Nagaland	S. Supongmeren Jamir	Indian National Congress
<b>Odisha</b>			
280.	1-Bargarh	Pradeep Purohit	Bharatiya Janata Party
281.	2-Sundargarh (ST)	Jual Oram	Bharatiya Janata Party
282.	3-Sambalpur	Dharmendra Pradhan	Bharatiya Janata Party
283.	4-Keonjhar (ST)	Ananta Nayak	Bharatiya Janata Party
284.	5-Mayurbhanj (ST)	Naba Charan Majhi	Bharatiya Janata Party
285.	6-Balasore	Pratap Chandra Sarangi	Bharatiya Janata Party
286.	7-Bhadrak (SC)	Avimanyu Sethi	Bharatiya Janata Party
287.	8-Jajpur (SC)	Rabindra Narayan Behera	Bharatiya Janata Party
288.	9-Dhenkanal	Rudra Narayan Pany	Bharatiya Janata Party
289.	10-Bolangir	Sangeeta Kumari Singh Deo	Bharatiya Janata Party
290.	11-Kalahandi	Malvika Devi	Bharatiya Janata Party
291.	12-Nabarangpur (ST)	Balabhadra Majhi	Bharatiya Janata Party
292.	13-Kandhamal	Sukanta Kumar Panigrahi	Bharatiya Janata Party
293.	14-Cuttack	Bhartruhari Mahtab	Bharatiya Janata Party
294.	15-Kendrapara	Baijayant Panda	Bharatiya Janata Party
295.	16-Jagatsinghpur (SC)	Bibhu Prasad Tarai	Bharatiya Janata Party
296.	17-Puri	Sambit Patra	Bharatiya Janata Party
297.	18-Bhubaneswar	Aparajita Sarangi	Bharatiya Janata Party
298.	19-Aska	Anita Subhadarshini	Bharatiya Janata Party
299.	20-Berhampur	Dr. Pradeep Kumar Panigrahy	Bharatiya Janata Party
300.	21-Koraput (ST)	Saptagiri Sankar Ulaka	Indian National Congress
<b>Punjab</b>			
301.	1-Gurdaspur	Sukhjinder Singh Randhawa	Indian National Congress
302.	2-Amritsar	Gurjeet Singh Aujla	Indian National Congress
303.	3-Khadoor Sahib	Amritpal Singh	Independent
304.	4-Jalandhar (SC)	Charanjit Singh Channi	Indian National Congress

Sl. No.	No. and Name of Parliamentary Constituency	Name of the Elected Member	Party Affiliation (If any)
305.	5-Hoshiarpur (SC)	Dr. Raj Kumar Chabbewal	Aam Aadmi Party
306.	6-Anandpur Sahib	Malvinder Singh Kang	Aam Aadmi Party
307.	7-Ludhiana	Amrinder Singh Raja Warring	Indian National Congress
308.	8-Fatehgarh Sahib (SC)	Amar Singh	Indian National Congress
309.	9-Faridkot (SC)	Sarabjeet Singh Khalsa	Independent
310.	10-Firozpur	Sher Singh Ghubaya	Indian National Congress
311.	11-Bathinda	Harsimrat Kaur Badal	Shiromani Akali Dal
312.	12-Sangrur	Gurmeet Singh Meet Hayer	Aam Aadmi Party
313.	13-Patiala	Dr. Dharamvira Gandhi	Indian National Congress
<b>Rajasthan</b>			
314.	1-Ganganagar (SC)	Kuldeep Indora	Indian National Congress
315.	2-Bikaner (SC)	Arjun Ram Meghwal	Bharatiya Janata Party
316.	3-Churu	Rahul Kaswan	Indian National Congress
317.	4-Jhunjhunu	Brijendra Singh Ola	Indian National Congress
318.	5-Sikar	Amraram	Communist Party of India (Marxist)
319.	6-Jaipur Rural	Rao Rajendra Singh	Bharatiya Janata Party
320.	7-Jaipur	Manju Sharma	Bharatiya Janata Party
321.	8-Alwar	Bhupender Yadav	Bharatiya Janata Party
322.	9-Bharatpur (SC)	Sanjna Jatav	Indian National Congress
323.	10-Karauli-Dholpur (SC)	Bhajan Lal Jatav	Indian National Congress
324.	11-Dausa (ST)	Murari Lal Meena	Indian National Congress
325.	12-Tonk-Sawai Madhopur	Harish Chandra Meena	Indian National Congress
326.	13-Ajmer	Bhagirath Choudhary	Bharatiya Janata Party
327.	14-Nagaur	Hanuman Beniwal	Rashtriya Loktantrik Party
328.	15-Pali	P. P. Chaudhary	Bharatiya Janata Party
329.	16-Jodhpur	Gajendra Singh Shekhawat	Bharatiya Janata Party
330.	17-Barmer	Ummeda Ram Beniwal	Indian National Congress
331.	18-Jalore	Lumbaram	Bharatiya Janata Party
332.	19-Udaipur (ST)	Manna Lal Rawat	Bharatiya Janata Party
333.	20-Banswara (ST)	Raj Kumar Roat	Bharat Adivasi Party
334.	21-Chittorgarh	Chandra Prakash Joshi	Bharatiya Janata Party
335.	22-Rajsamand	Mahima Kumari Mewar	Bharatiya Janata Party
336.	23-Bhilwara	Damodar Agarwal	Bharatiya Janata Party
337.	24-Kota	Om Birla	Bharatiya Janata Party
338.	25-Jhalawar-Baran	Dushyant Singh	Bharatiya Janata Party
<b>Sikkim</b>			
339.	1-Sikkim	Indra Hang Subba	Sikkim Krantikari Morcha
<b>Tamil Nadu</b>			
340.	1-Tiruvallur (SC)	Sasikanth Senthil	Indian National Congress
341.	2-Chennai North	Dr.Kalanidhi Veeraswamy	Dravida Munnetra Kazhagam
342.	3-Chennai South	T.Sumathy (alias) Thamizhachi Thangapandian	Dravida Munnetra Kazhagam



Sl. No.	No. and Name of Parliamentary Constituency	Name of the Elected Member	Party Affiliation (If any)
343.	4-Chennai Central	Dayanidhi Maran	Dravida Munnetra Kazhagam
344.	5-Sriperumbudur	T.R.Baalu	Dravida Munnetra Kazhagam
345.	6-Kancheepuram (SC)	Selvam. G	Dravida Munnetra Kazhagam
346.	7-Arakkonam	S.Jagathratchakan	Dravida Munnetra Kazhagam
347.	8-Vellore	D.M.Kathir Anand	Dravida Munnetra Kazhagam
348.	9-Krishnagiri	Gopinath .K	Indian National Congress
349.	10-Dharmapuri	Mani. A.	Dravida Munnetra Kazhagam
350.	11-Tiruvannamalai	Annadurai, C.N.	Dravida Munnetra Kazhagam
351.	12-Arani	Tharaniventhan M S	Dravida Munnetra Kazhagam
352.	13-Viluppuram (SC)	Ravikumar. D	Viduthalai Chiruthaigal Katchi
353.	14-Kallakurichi	Malaiyarasan. D	Dravida Munnetra Kazhagam
354.	15-Salem	Selvaganapathi. T.M	Dravida Munnetra Kazhagam
355.	16-Namakkal	Matheswaran V S	Dravida Munnetra Kazhagam
356.	17-Erode	K.E.Prakash	Dravida Munnetra Kazhagam
357.	18-Tiruppur	Subbarayan, K.	Communist Party of India
358.	19-Nilgiris (SC)	Raja.A	Dravida Munnetra Kazhagam
359.	20-Coimbatore	Ganapathy Rajkumar, P.	Dravida Munnetra Kazhagam
360.	21-Pollachi	Eswarasamy, K.	Dravida Munnetra Kazhagam
361.	22-Dindigul	Sachithanantham. R	Communist Party of India (Marxist)
362.	23-Karur	Jothimani. S	Indian National Congress
363.	24-Tiruchirappalli	Durai Vaiko	Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam
364.	25-Perambalur	Arun Nehru	Dravida Munnetra Kazhagam
365.	26-Cuddalore	M.K. Vishnuprasad	Indian National Congress
366.	27-Chidambaram (SC)	Thirumaavalavan. Thol	Viduthalai Chiruthaigal Katchi
367.	28-Mayiladuthurai	Sudha.R	Indian National Congress
368.	29-Nagapattinam (SC)	Selvaraj. V	Communist Party of India
369.	30-Thanjavur	Murasoli, S.	Dravida Munnetra Kazhagam
370.	31-Sivaganga	Karti P Chidambaram	Indian National Congress
371.	32-Madurai	Venkatesan S	Communist Party of India (Marxist)
372.	33-Theni	Thanga Tamilselvan	Dravida Munnetra Kazhagam
373.	34-Virudhunagar	Manickam Tagore,B.	Indian National Congress
374.	35-Ramanathapuram	Navaskani.K	Indian Union Muslim League
375.	36-Thoothukkudi	Kanimozhi Karunanidhi	Dravida Munnetra Kazhagam
376.	37-Tenkasi (SC)	Dr Rani Srikumar	Dravida Munnetra Kazhagam
377.	38-Tirunelveli	Robert Bruce, C.	Indian National Congress
378.	39-Kanniyakumari	Vijayakumar (alias) Vijay Vasanth	Indian National Congress
<b>Telangana</b>			
379.	1-Adilabad (ST)	Godam Nagesh	Bharatiya Janata Party
380.	2-Peddapalle (SC)	Vamsi Krishna Gaddam	Indian National Congress
381.	3-Karimnagar	Bandi Sanjay Kumar	Bharatiya Janata Party
382.	4-Nizamabad	Arvind Dharmapuri	Bharatiya Janata Party

Sl. No.	No. and Name of Parliamentary Constituency	Name of the Elected Member	Party Affiliation (If any)
383.	5-Zahirabad	Suresh Kumar Shetkar	Indian National Congress
384.	6-Medak	Madhavaneni Raghunandan Rao	Bharatiya Janata Party
385.	7-Malkajgiri	Eatala Rajender	Bharatiya Janata Party
386.	8-Secunderabad	G. Kishan Reddy	Bharatiya Janata Party
387.	9-Hyderabad	Asaduddin Owaisi	All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen
388.	10-Chevella	Konda Vishweshwar Reddy	Bharatiya Janata Party
389.	11-Mahbubnagar	Aruna .D. K	Bharatiya Janata Party
390.	12-Nagarkurnool (SC)	Dr.Mallu Ravi	Indian National Congress
391.	13-Nalgonda	Kunduru Raghuvveer	Indian National Congress
392.	14-Bhongir	Chamala Kiran Kumar Reddy	Indian National Congress
393.	15-Warangal (SC)	Kadiyam Kavya	Indian National Congress
394.	16-Mahabubabad (ST)	Balram Naik Porika	Indian National Congress
395.	17-Khammam	Ramasahayam Raghuram Reddy	Indian National Congress
<b>Tripura</b>			
396.	1-Tripura West	Biplab Kumar Deb	Bharatiya Janata Party
397.	2-Tripura East (ST)	Kriti Devi Debbarman	Bharatiya Janata Party
<b>Uttar Pradesh</b>			
398.	1-Saharanpur	Imran Masood	Indian National Congress
399.	2-Kairana	Iqra Choudhary	Samajwadi Party
400.	3-Muzaffarnagar	Harendra Singh Malik	Samajwadi Party
401.	4-Bijnor	Chandan Chauhan	Rashtriya Lok Dal
402.	5-Nagina (SC)	Chandrashekhar	Aazad Samaj Party (Kanshi Ram)
403.	6-Moradabad	Ruchi Vira	Samajwadi Party
404.	7-Rampur	Mohibbullah	Samajwadi Party
405.	8-Sambhal	Zia Ur Rehman	Samajwadi Party
406.	9-Amroha	Kanwar Singh Tanwar	Bharatiya Janata Party
407.	10-Meerut	Arun Govil	Bharatiya Janata Party
408.	11-Baghpat	Dr Rajkumar Sangwan	Rashtriya Lok Dal
409.	12-Ghaziabad	Atul Garg	Bharatiya Janata Party
410.	13-Gautam Buddha Nagar	Dr. Mahesh Sharma	Bharatiya Janata Party
411.	14-Bulandshahr (SC)	Dr Bholu Singh	Bharatiya Janata Party
412.	15-Aligarh	Satish Kumar Gautam	Bharatiya Janata Party
413.	16-Hathras (SC)	Anoop Pradhan Balmiki	Bharatiya Janata Party
414.	17-Mathura	Hemamalini Dharmendra Deol	Bharatiya Janata Party
415.	18-Agra (SC)	Prof. S.P. Singh Baghel	Bharatiya Janata Party
416.	19-Fatehpur Sikri	Raj Kumar Chahar	Bharatiya Janata Party
417.	20-Firozabad	Akshaya Yadav	Samajwadi Party
418.	21-Mainpuri	Dimple Yadav	Samajwadi Party
419.	22-Etah	Devesh Shakya	Samajwadi Party
420.	23-Badaun	Aditya Yadav	Samajwadi Party
421.	24-Aonla	Neeraj Maurya	Samajwadi Party

Sl. No.	No. and Name of Parliamentary Constituency	Name of the Elected Member	Party Affiliation (If any)
422.	25-Bareilly	Chhatra Pal Singh Gangwar	Bharatiya Janata Party
423.	26-Pilibhit	Jitin Prasada	Bharatiya Janata Party
424.	27-Shahjahanpur (SC)	Arun Kumar Sagar	Bharatiya Janata Party
425.	28-Kheri	Utkarsh Verma 'Madhur'	Samajwadi Party
426.	29-Dhaurahra	Anand Bhadauriya	Samajwadi Party
427.	30-Sitapur	Rakesh Rathor	Indian National Congress
428.	31-Hardoi (SC)	Jai Prakash	Bharatiya Janata Party
429.	32-Misrikh (SC)	Ashok Kumar Rawat	Bharatiya Janata Party
430.	33-Unnao	Swami Sachchidanand Hari Sakshi	Bharatiya Janata Party
431.	34-Mohanlalganj (SC)	R.K. Chaudhary	Samajwadi Party
432.	35-Lucknow	Raj Nath Singh	Bharatiya Janata Party
433.	36-Rae Bareli	Rahul Gandhi	Indian National Congress
434.	37-Amethi	Kishori Lal	Indian National Congress
435.	38-Sultanpur	Rambhual Nishad	Samajwadi Party
436.	39-Pratapgarh	Shiv Pal Singh Patel (Dr. S P Singh)	Samajwadi Party
437.	40-Farrukhabad	Mukesh Rajput	Bharatiya Janata Party
438.	41-Etawah (SC)	Jitendra Kumar Dohare	Samajwadi Party
439.	42-Kannauj	Akhilesh Yadav	Samajwadi Party
440.	43-Kanpur	Ramesh Awasthi	Bharatiya Janata Party
441.	44-Akbarpur	Devendra Singh alias Bhole Singh	Bharatiya Janata Party
442.	45-Jalaun (SC)	Narayan Das Ahirwar	Samajwadi Party
443.	46-Jhansi	Anurag Sharma	Bharatiya Janata Party
444.	47-Hamirpur	Ajendra Singh Lodhi	Samajwadi Party
445.	48-Banda	Krishna Devi Shivshanker Patel	Samajwadi Party
446.	49-Fatehpur	Naresh Chandra Uttam Patel	Samajwadi Party
447.	50-Kaushambi (SC)	Pushpendra Saroj	Samajwadi Party
448.	51-Phulpur	Praveen Patel	Bharatiya Janata Party
449.	52-Allahabad	Ujjwal Raman Singh	Indian National Congress
450.	53-Barabanki (SC)	Tanuj Punia	Indian National Congress
451.	54-Faizabad	Awadhesh Prasad	Samajwadi Party
452.	55-Ambedkar Nagar	Lalji Verma	Samajwadi Party
453.	56-Bahraich (SC)	Anand Kumar	Bharatiya Janata Party
454.	57-Kaiserganj	Karan Bhushan Singh	Bharatiya Janata Party
455.	58-Shrawasti	Ram Shiromani Verma	Samajwadi Party
456.	59-Gonda	Kirtivardhan Singh	Bharatiya Janata Party
457.	60-Domariyaganj	Jagdambika Pal	Bharatiya Janata Party
458.	61-Basti	Ram Prasad Chaudhary	Samajwadi Party
459.	62-Sant Kabir Nagar	Laxmikant Pappu Nishad	Samajwadi Party
460.	63-Maharajganj	Pankaj Chaudhary	Bharatiya Janata Party
461.	64-Gorakhpur	Ravindra Shukla alias Ravi Kishan	Bharatiya Janata Party
462.	65-Kushi Nagar	Vijay Kumar Dubay	Bharatiya Janata Party

Sl. No.	No. and Name of Parliamentary Constituency	Name of the Elected Member	Party Affiliation (If any)
463.	66-Deoria	Shashank Mani	Bharatiya Janata Party
464.	67-Bansgaon (SC)	Kamlesh Paswan	Bharatiya Janata Party
465.	68-Lalganj (SC)	Daroga Prasad Saroj	Samajwadi Party
466.	69-Azamgarh	Dharmendra Yadav	Samajwadi Party
467.	70-Ghosi	Rajeev Rai	Samajwadi Party
468.	71-Salempur	Ramashankar Rajbhar	Samajwadi Party
469.	72-Ballia	Sanatan Pandey	Samajwadi Party
470.	73-Jaunpur	Babu Singh Kushwaha	Samajwadi Party
471.	74-Machhlishahr (SC)	Priya Saroj	Samajwadi Party
472.	75-Ghazipur	Afzal Ansari	Samajwadi Party
473.	76-Chandauli	Birendra Singh	Samajwadi Party
474.	77-Varanasi	Narendra Modi	Bharatiya Janata Party
475.	78-Bhadohi	Dr. Vinod Kumar Bind	Bharatiya Janata Party
476.	79-Mirzapur	Anupriya Patel	Apna Dal (Soneylal)
477.	80-Robertsganj (SC)	Chhotelal	Samajwadi Party
<b>Uttarakhand</b>			
478.	1-Tehri Garhwal	Mala Rajya Lakshmi Shah	Bharatiya Janata Party
479.	2-Garhwal	Anil Baluni	Bharatiya Janata Party
480.	3-Almora (SC)	Ajay Tamta	Bharatiya Janata Party
481.	4-Nainital-Udhamsingh Nagar	Ajay Bhatt	Bharatiya Janata Party
482.	5-Hardwar	Trivendra Singh Rawat	Bharatiya Janata Party
<b>West Bengal</b>			
483.	1-Coochbehar (SC)	Jagadish Chandra Barma Basunia	All India Trinamool Congress
484.	2-Alipurduars (ST)	Manoj Tigga	Bharatiya Janata Party
485.	3-Jalpaiguri (SC)	Dr. Jayanta Kumar Roy	Bharatiya Janata Party
486.	4-Darjeeling	Raju Bista	Bharatiya Janata Party
487.	5-Raiganj	Kartick Chandra Paul	Bharatiya Janata Party
488.	6-Balurghat	Sukanta Majumdar	Bharatiya Janata Party
489.	7-Maldaha Uttar	Khagen Murmu	Bharatiya Janata Party
490.	8-Maldaha Dakshin	Isha Khan Choudhury	Indian National Congress
491.	9-Jangipur	Khalilur Rahaman	All India Trinamool Congress
492.	10-Baharampur	Pathan Yusuf	All India Trinamool Congress
493.	11-Murshidabad	Abu Taher Khan	All India Trinamool Congress
494.	12-Krishnanagar	Mahua Moitra	All India Trinamool Congress
495.	13-Ranaghat (SC)	Jagannath Sarkar	Bharatiya Janata Party
496.	14-Bangaon (SC)	Shantanu Thakur	Bharatiya Janata Party
497.	15-Barrackpur	Partha Bhowmick	All India Trinamool Congress
498.	16-Dum Dum	Sougata Ray	All India Trinamool Congress
499.	17-Barasat	Dr. Kakoli Ghosh Dastidar	All India Trinamool Congress
500.	18-Basirhat	SK Nurul Islam	All India Trinamool Congress
501.	19-Jaynagar (SC)	Pratima Mondal	All India Trinamool Congress

Sl. No.	No. and Name of Parliamentary Constituency	Name of the Elected Member	Party Affiliation (If any)
502.	20-Mathurapur (SC)	Bapi Halder	All India Trinamool Congress
503.	21-Diamond Harbour	Abhishek Banerjee	All India Trinamool Congress
504.	22-Jadavpur	Sayani Ghosh	All India Trinamool Congress
505.	23-Kolkata Dakshin	Mala Roy	All India Trinamool Congress
506.	24-Kolkata Uttar	Bandyopadhyay Sudip	All India Trinamool Congress
507.	25-Howrah	Prasun Banerjee	All India Trinamool Congress
508.	26-Uluberia	Sajda Ahmed	All India Trinamool Congress
509.	27-Sreerampur	Kalyan Banerjee	All India Trinamool Congress
510.	28-Hooghly	Rachna Banerjee	All India Trinamool Congress
511.	29-Arambag (SC)	Bag Mitali	All India Trinamool Congress
512.	30-Tamluk	Abhijit Gangopadhyay	Bharatiya Janata Party
513.	31-Kanthi	Adhikari Soumendu	Bharatiya Janata Party
514.	32-Ghatal	Adhikari Deepak (Dev)	All India Trinamool Congress
515.	33-Jhargram (ST)	Kalipada Saren (Kherwal)	All India Trinamool Congress
516.	34-Medinipur	June Maliah	All India Trinamool Congress
517.	35-Purulia	Jyotirmay Singh Mahato	Bharatiya Janata Party
518.	36-Bankura	Arup Chakraborty	All India Trinamool Congress
519.	37-Bishnupur (SC)	Khan Saumitra	Bharatiya Janata Party
520.	38-Bardhaman Purba (SC)	Dr. Sharmila Sarkar	All India Trinamool Congress
521.	39-Bardhaman-Durgapur	Azad Kirti Jha	All India Trinamool Congress
522.	40-Asansol	Shatrughan Prasad Sinha	All India Trinamool Congress
523.	41-Bolpur (SC)	Asit Kumar Mal	All India Trinamool Congress
524.	42-Birbhum	Satabdi Roy	All India Trinamool Congress
<b>Andaman &amp; Nicobar Islands</b>			
525.	1-Andaman & Nicobar Islands	Bishnu Pada Ray	Bharatiya Janata Party
<b>Chandigarh</b>			
526.	1-Chandigarh	Manish Tewari	Indian National Congress
<b>Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu</b>			
527.	1-Daman and Diu	Patel Umeshbhai Babubhai	Independent
528.	2-Dadra and Nagar Haveli (ST)	Delkar Kalaben Mohanbhai	Bharatiya Janata Party
<b>Jammu and Kashmir</b>			
529.	1-Baramulla	Abdul Rashid Sheikh	Independent
530.	2-Srinagar	Aga Syed Ruhullah Mehdi	Jammu & Kashmir National Conference
531.	3-Anantnag - Rajouri	Mian Altaf Ahmad	Jammu & Kashmir National Conference
532.	4-Udhampur	Dr. Jitendra Singh	Bharatiya Janata Party
533.	5-Jammu	Jugal Kishore	Bharatiya Janata Party
<b>Ladakh</b>			
534.	1-Ladakh	Mohmad Haneefa	Independent

Sl. No.	No. and Name of Parliamentary Constituency	Name of the Elected Member	Party Affiliation (If any)
<b>Lakshadweep</b>			
535.	1-Lakshadweep (ST)	Muhammed Hamdullah Sayeed	Indian National Congress
<b>National Capital Territory of Delhi</b>			
536.	1-Chandni Chowk	Praveen Khandelwal	Bharatiya Janata Party
537.	2-North East Delhi	Manoj Tiwari	Bharatiya Janata Party
538.	3-East Delhi	Harsh Malhotra	Bharatiya Janata Party
539.	4-New Delhi	Bansuri Swaraj	Bharatiya Janata Party
540.	5-North West Delhi (SC)	Yogender Chandoliya	Bharatiya Janata Party
541.	6-West Delhi	Kamaljeet Sehrawat	Bharatiya Janata Party
542.	7-South Delhi	Ramvir Singh Bidhuri	Bharatiya Janata Party
<b>Puducherry</b>			
543.	1-Puducherry	Ve. Vaithilingam	Indian National Congress

[No. 308/2024/EPS]

By Order,

NITESH VYAS, Senior Dy. Election Commissioner